

Listing Deptt. / Deptt. of Corporate Relations

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai

Fax- 022-22722037/ 39/41/61/3121/22723719

Scrip Code: 532524

Listing Deptt.
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G
Bandra – Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai -51
Fax-022-26598237/38 - 022-26598347/48
Company Code: PTC

Sub: Newspaper advertisement confirming dispatch of Notice of Postal Ballot.

Ref: Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

In continuation to our letter dated 10th March, 2025 with regard to the Postal Ballot Notice, please find enclosed copies of newspaper advertisement confirming dispatch of Postal Ballot Notice published in Business Standard (English & Hindi) both on 11th March, 2025.

This will also be hosted on the company's website at www.ptcindia.com.

This is for your information and records.

Thanking You,

For PTC India Limited

Rajiv Maheshwari (Company Secretary) FCS- 4998

Enclosures:

- Copy of Advertisement in Business Standard Delhi (in English)
- Copy of Advertisement in Business Standard Delhi (in Hindi)
- Copy of Advertisement in Business Standard Mumbai (in English)
- Copy of Advertisement in Business Standard Mumbai (in Hindi)
- Copy of Advertisement in Business Standard Bengaluru (in English)

OPINION

How technology can help in inflation forecasting

The integration of AI in economic forecasting, specifically inflation prediction, is a burgeoning field that leverages advancements in ML and natural language processing



& PULAK GHOSH

"Central banks must feel like they have stepped through a mirror, and who can blame them? They used to struggle to bring inflation down or keep it under control; now they toil to push it up. They used to fear wage increases; now they urge them on. They used to dread fiscal expansion: now they sometimes invoke it.'

- Claudio Borio, 2017, former head, Monetary and Economic Department, Bank for International Settlements


ast forward to 2022, when this cycle was reversed, and it was completely unanticipated. with the world engulfed with a vicious inflation cycle. However, such developments clearly reflected the significant scholastic challenges in monetary policymaking post the global financial crisis and in the aftermath of the pandemic. Interestingly, such challenges now also confront monetary policymaking in India, as we are recently witnessing. In essence, globalisation has acted as a powerful tool in contributing to extended periods of low and high inflation. Additionally, the entry of low-paid workers in the workforce at home and globally, as emerging markets have

opened up, has further complicated monetary policymaking.


Against this background, it is imperative that the economic research methodology at central banks (the Reserve Bank of India included) of forecasting macro variables like inflation keep pace with technological advancements. Remarkably, the new RBI governor has already emphasised the importance of such tools.

For example, the path of inflation trajectory in the future is fraught with uncertainties since opposite forces are at work. While food price outlook will continue to have a large impact on Consumer Price Index (CPI) inflation (the global food price index has been rising recently), geopolitical uncertainties, like threats of dumping and fall in global oil prices, would have a soothing impact on inflation. Gold prices could also have an impact as central banks had continued to buy gold in recent years, diversifying the reserve base. Clearly, many competing forces are at work. This would also mean that the focus of economic research at central banks will have to be more nimble, agile and fleet-footed to support policymaking. In fact, emerging economy central banks, like the RBI, can take a clearly defined frontloaded initiative in this matter, just as it did recently in frontloading policy actions even before the Fed did.

The increasing adoption of large language models (LLMs) marks a significant shift in such economic research methodology. One important question to the central bank policymakers is: Can LLM be used to understand inflation quickly, more



GOOGLE TREND VS ACTUAL INFLATION: FY22-FY25 (Jan)



accurately and in the most costeffective way? Additionally, every central bank spends a lot of money on surveying consumers to understand inflation expectations. The obvious question is: Can LLMs replicate key patterns observed in human survey responses regarding inflation expectations? How do these models react to different types of economic information? Can they serve as reliable tools for aug-

menting traditional survey methods and informing policy design?

An LLM can be very useful in inflation estimation in two pri-

mary ways. First, by analysing vast amounts of text data from news articles, economic reports, and social media to identify trends and sentiment that might indicate future changes in price levels, potentially providing a

more nuanced and timely understanding of inflation compared to traditional methods that rely solely on numerical data. This can be particularly useful for "nowcasting" or short-term inflation forecasts. Improving classic inflation nowcasting techniques through the use of machine learning (ML) and artificial intelligence (AI) techniques to capture expectations is quite common now.

The integration of AI in economic forecasting, specifically inflation prediction, is a burgeoning field that leverages advancements in ML and natural language processing. Recent studies, such as the one conducted by Miguel Faria-e-Castro and Fernando Leibovici (2024) at the Federal Reserve Bank of St Louis, explore the potential of LLMs like Google's PaLM to generate accurate inflation forecasts. This research demonstrates that LLMs can produce much lower conditional inflation forecasts with lower mean-squared errors compared to traditional methods such as the Survey of Professional Forecasters over multiple years and forecast horizons. The findings suggest that AI-based models can offer an effective and cost-efficient alternative to traditional expert and survey-based forecasting methods. This study aligns with previous works like those by L Bybee (2023), who used GPT-3.5 to simulate economic expectations, and extends the understanding of how LLMs can be utilised for macroeconomic and financial predictions. Another angle where LLM can

be very useful is deploying AI agents — automated agents

using LLMs with predefined tasks — in structured inflation expectation surveys, and comparing their responses to human survey response data. This can be highly effective, and recent work explores this successfully.

The idea is simple and involves employing AI agents as participants in a survey experiment focused on household and consumer inflation expectations, rather than those of professional forecasters or firms. This focus is particularly valuable as household expectations play a crucial role in determining consumer behaviour and aggregate economic outcomes. while gathering large-scale household response data is often costly and time-consuming. This approach enables AI agents to access and incorporate external knowledge, demonstrating how they process real-world economic information. This approach is especially relevant given that household inflation expectations significantly influence central bank policy design and implementation.

The rapid adoption of generative AI (GAI) across economic sectors adds urgency to this research. Bick et al (2024) find that nearly 40 per cent of US adults used generative AI by August 2024, with 28 per cent using it at work. Aldasoro et al (2024) report almost half of US households use GAI tools. though usage varies significantly across demographic groups. As AI-assisted decision-making becomes more prevalent, understanding these patterns and their implications becomes increas-

ingly important (Korinek, 2023). However we must remember that there are several caveats in the use of LLMs for forecasting. First, these models are pretrained by their developers on specific datasets. The user of the LLM has no control over the data used to train these models and retraining them over subsets of data is typically not an option as it involves significant hardware requirements. The training data is typically not time-stamped. which prevents retraining the model on data up to a certain date. This limitation also makes it impossible to produce true outof-sample forecasts for all dates on which the model has been

trained. Second, publicly available models are regularly retrained by the developers, pos-

ing challenges to replicability. Despite these caveats, the time is ripe to take the first step towards assessing the potential of LLMs as forecasting tools. By comparing these simulated forecasts with the actual inflation data and forecasts from other sources, we can assess the poten tial accuracy and usefulness of LLMs in inflation forecasting

The accompanying graph shows the Google trends in inflation from India juxtaposed against the actual inflation. The Google trend inflation is indexed on a scale of 1-100, where a higher number, say, 70 indicates that the noise on inflation is 70 per cent of the all-time high at 100! The trends reveal that the Google trend has been a leading indicator of headline inflation. This was evident in January 2024 and May 2024 when headline inflation was declining but Google trend inflation was increasing. Headline inflation actually jumped thereafter.

We end with an interesting anecdote. Exit poll results for India in June 2024 did dent the credibility of pollsters. While almost all exit polls released on June 1 got their predictions terribly wrong, a more accurate analysis came from a research firm called Kcore Analytics This company used artificial intelligence gathered from people's social media interactions (if we recollect, a large part of the campaigning for 2024 general elections were driven by unsubstantiated social media cacophony and narratives) - what they were reading, writing, and responding to on the internet to predict voter preferences. The analysis also used important data like inflation, which could influence elections. The results were almost spot on! Amongst all imprecise exit polls, this AI exit poll has truly been an outlier. Paraphrasing Milton Friedman differently: "Inflation everywhere is a monetary (and a political) phenomenon!

The authors are, respectively, Member, 16th Finance Commission, and Group Chief Economic Advisor, State Bank of India; and Professor, Indian Institute of Management Bangalore

MPL

MAITHON POWER LIMITED

(Contracts Department)
Maithon Power Ltd, Village: Dambhui, PO Barbindia, PIN-828205, District-Dhanbad NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST

The Maithon Power Limited invites expression of interest from eligible vendors for the following packages: Tender Description Supply of RAPH baskets & RAPH Seals & Spares for U#1 shut down in FY-26

2 Mill Reject removal - Unit -1 & 2-Ist & 2nd Year in Maithon Power Limited For details of pre-qualification requirements, bid security, purchasing of tender document etc. please visit our website URL- https://www.tatapower.com/tender

Eligible vendors willing to participate may submit their expression of interest along with the tender fee for issue of bid document latest by 20th - March 2025.

Mother Dairy Calcutta P.O. - Dankuni Coal Complex, Dist - Hooghly, Pin - 712310

Mother Dairy Calcutta invites e-tender for supplying of "Caustic Soda Lye" on Annual Rate Contract basis. Please visit www wbtenders.gov.in and www.motherdairycalcutta. com for details. Last date of uploading of online offer i 27.03.2025 upto 03:00 pm.

Chief General Manager

UNITED SPIRITS LIMITED Regd. Office: 'UB Tower', # 24, Vittal Mallya Road, Bengaluru-560 001.

DIAGEO

Tel: +91 80 3985 6500; Fax: +91 80 3985 6862 Email: investor.india@diageo.com Website: www.diageoindia.com Corporate Identity Number: L01551KA1999PLC024991

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the Company has received requests from the following shareholders for issue of Duplicate Share Certificate(s) in lieu of the Original Share Certificate(s) reported to have been lost / misplaced. The share certificate(s) mentioned hereunder are therefore deemed to be cancelled and no transactions thereon would be recognized by the Company

SI. Folio No.		Name of the Shareholder	No. of	Certificate	Distinc	ctive Nos	
No	No Folio No. Name of the Shareholder		Shares	Number	From	То	
01	MS138377	PREM KUMAR TACHOLI KARAYI	1000	6005	723215636	723216635	
02	MS049185	HARSHADA PATIL MR BARUN DAS	500	1755	720796836	720797335	

The public are hereby advised against dealing in any way with the above share certificates. Any person(s) who has / have any claims(s) in respect of the said share certificates should lodge such claim(s) along with all documentary evidences with the Company at its Registered Office within 7 days of the publication of this notice, after which no claim(s) will be entertained, and the Company will proceed to issue duplicate share certificates.

Place : Mumbai Dated: 10.03.2025 For UNITED SPIRITS LIMITED Mital Sanghvi (Company Secretary)

OSBI Corporate Centre, Stressed Assets Resolution Group, 2nd Floor, The Arcade, World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai-40005

TRANSFER OF STRESSED LOAN EXPOSURE TO ELIGIBLE BUYERS (PERMITTED ARCs/NBFCs/Banks/Fls)
THROUGH e-AUCTION

State Bank of India invites Expression of Interest (EOI) from eligible participants subject to applicable regulations issued by Reserve Bank of India/Regulators for transfer of Stressed Loan Exposure of ₹284.57 crore (Rupees two hundred eighty four crore fifty seven lakh only) pertaining to 5(five) pools / portfolios comprising 30 (thirty) accounts having aggregate principal outstanding of ₹90.01 Crore (Rupees ninety crore one lakh only) through e-Auction on "as is where is", "as is what is", "whatever there is' and "without recourse" basis.

All interested eligible participants are requested to submit their willingness to participate in the e-Auction by way of an "Expression of Interest" and after execution of Non-Disclosure Agreement (as per the $time lines \, mentioned \, in \, web-notice) \, if \, not \, already \, executed \, \, by \, contacting \, if \, not \, already \, executed \, \, by \, contacting \, if \, not \, already \, executed \, \, by \, contacting \, if \, not \, already \, executed \, \, by \, contacting \, if \, not \, already \, executed \, \, by \, contacting \, if \, not \, already \, executed \, \, by \, contacting \, if \, not \, already \, executed \, \, by \, contacting \, if \, not \, already \, executed \, \, by \, contacting \, if \, not \, already \, executed \, \, by \, contacting \, if \, not \, already \, executed \, \, by \, contacting \, if \, not \, already \, executed \, \, by \, contacting \, if \, not \, already \, executed \, \, by \, contacting \, if \, not \, already \, executed \, \, by \, contacting \, if \, not \, already \, executed \, \, by \, contacting \, if \, not \, already \, executed \, \, by \, contacting \, if \, not \, already \, executed \, executed \, executed \, executed \, exe$ on e-mail id dgm.sr@sbi.co.in. Please visit Bank's website https://bank.sbi and click on the link "SBI in the news>Auction Notices>ARC&DRT" for further details (web-notice)

Please note that Bank reserves the right not to go ahead with the proposed e-Auction and modify e-Auction date, any terms & conditions etc. at any stage without assigning any reasons by uploading the corrigendum at https://bank.sbi (click on the link "SBI in the news>Auction Notices>ARC & DRT"). The decision of the Bank shall be final and binding.

Place: Mumbai Date: 11.03.2025

Issued by Deputy General Manager (Credit & ARC)

PTC India

Date:10th March, 2025

Place: New Delhi

PTC India Limited CIN: L40105DL1999PLC099328

Regd. Office: 2nd Floor, NBCC Tower, 15 Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066

Website: Tel: 011-41659500, 41595100, 46484200. Fax: 011-41659144 E-mail: info@ptcindia.com Website: www.ptcindia.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108 and 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (cumulatively "Act"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard-2 issued by Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws and regulations, if any, including any statutory modification (s), re-enactment (s) thereof, for the time being in force, PTC India Limited (the "Company") is seeking approval from its Members for passing of Resolution as set out in the Postal Ballot Notice dated 10th March, 2025 ("Postal Ballot Notice") by way of electronic voting ("e-voting/remote e-voting") only.

In terms of relevant provisions of the Act and in accordance with the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs, inter-alia, for conducting Postal Ballot through e-voting vide General Circular No. 14/2020 (dated 8th April 2020) and latest being Circular No. 9/2024 dated 19th September, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular/s") and circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 03rd October, 2024 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), the process of sending Postal Ballot Notice along with the instructions regarding remote e-voting through email to all those Members, whose email addresses is registered with the Company or with the Depositories/ Depository Participants or Registrar and Share Transfer Agent of the Company ("RTA") and whose names appear in the Register of Members/list of Beneficial Owners as on Friday, 07th March, 2025 ("Cut-Off Date"), has completed on 10th March, 2025.

In compliance with the requirements of the MCA Circulars, physical copy of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms and pre-paid business envelope will not be sent to the Members for this Postal Ballot and Members are required to communicate their assent or dissent through remote e-voting systems only. The Company has engaged National Securities Depository Limited ("NSDL") as e-voting agency for the purpose of providing remote e-voting services All the members are hereby informed that:

- (a) The remote e-voting period commences on Tuesday, 11th March, 2025 (09:00 A.M. IST) and will end on Wednesday, 09th April, 2025 (05:00 P.M. IST) for all the members, whether holding shares in physical form or in demat form. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said time and date. Vote once casted cannot be changed subsequently.
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by depositories as on Cut-Off date i.e. Friday, 07th March, 2025, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.
- Shri Ashish Kapoor, Practicing Company Secretary (Membership No. F8002. CP No. 7504) has been appointed as Scrutinizer by the Company to scrutinize the remote e-voting in a fair and transparent manner in accordance with the applicable provisions of the Act & Rules.
- The results of the Postal Ballot/ e-voting will be declared within a period of 2 (two) working days from the conclusion of remote e-voting by the Chairman or any other person authorized by him in that behalf and displayed at the registered office of the Company. The results along with Scrutinizer's report shall be placed on the website of the Company and simultaneously be communicated to the Stock Exchanges and NSDL.

Members are requested to register their email IDs permanently by following procedure as mentioned below:

- (a) Members holding shares in physical mode and who have not registered / updated their e-mail ID with the Company Registrar are requested to register / update their email ID with MCS Share Transfer Agent Limited by sending duly signed request Form ISR-1/ letter at cs@ptcindia.com with relevant details, folio number and attaching a self-attested copy of
- (b) Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their e-mail ID with the relevant

For further details, kindly refer to the notice of Postal Ballot, the notice is also available on Company's website (www.ptcindia.com), Stock Exchanges' websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Any member seeking of electronic copy of this notice may write to us at cs@ptcindia.com. Further details including detailed instructions for voting are provided in the notice of postal ballot available on the website of the Company

In case of any queries/issues related to this Postal Ballot including remote e-voting facility, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited, 4th Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel Mumbai-400013, India or at 022 - 4886 7000/ e-voting@nsdl.com

By Order of the Board of Directors For PTC India Limited

> (Rajiv Maheshwari) Company Secretary M.No. FCS4998

NOTICE

MUTUAL FUND

NOTICE is is hereby given that DSP Trustee Private Limited, the Trustee to DSP Mutual Fund ('Fund') has approved the distribution under Income Distribution cum Capital Withdrawal ('IDCW') Option(s) of the below mentioned scheme(s) of the Fund.

Record Date*: March 13, 2025

Name of Scheme(s)	Plan(s)	Option(s)	Quantum of IDCW (₹ per Unit)#	Face Value (₹per Unit)	Net Asset Value (NAV') as on March 07, 2025 (₹ per unit)
DSP Top 100 Equity Fund	Direct	IDCW	2.4000	10.00	29.676
DSP Top 100 Equity Fund	Regular	IDCW	2.1000	10.00	25.906
DSP Banking & Financial Services Fund	Direct	IDCW	0.9000	10.00	11.740
DSP World Gold Fund of Fund	Direct	IDCW	0.8000	10.00	16.5405
DSP World Gold Fund of Fund	Regular	IDCW	0.8000	10.00	15.7316
DSP US Flexible Equity Fund of Fund	Direct	IDCW	2.7000	10.00	53.8857
DSP US Flexible Equity Fund of Fund	Regular	IDCW	1.4000	10.00	28.0105

The per unit rate is same for individual and other category of investors. *If in case the Record Date falls on a non-Business Day, the immediately following Business Day shall be the Record Date.

Distribution of the above IDCW is subject to the availability and adequacy of distributable surplus.

Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the IDCW Option(s) of the aforesaid Scheme(s) of the Fund would fall to the extent of payout and statutory levy, if any. IDCW amount will be paid to all those Unit Holders/Beneficial Owners whose names appear in the records of the Registrar and Transfer Agent, Computer Age Management Services Limited/statement of Beneficiary Owners maintained by the Depositories under the IDCW Option(s) of the aforesaid Scheme(s) as on the Record Date. The Payout shall be subject to tax deducted at source (TDS) as applicable.

Unit holders are advised to update change of address / bank details, if any, with depository participant(s) in advance of the Record Date.

Any queries/clarifications in this regard may be addressed to: DSP ASSET MANAGERS PRIVATE LIMITED CIN: U65990MH2021PTC362316, Investment Manager for DSP Mutual Fund ('Fund'), Mafatlal Centre, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai 400021, Tel. No.: 91-22-66578000, Fax No.: 91-22 66578181, Toll Free No: 1800 200 4499 Website: www.dspim.com

Unit holders are requested to update their PAN, KYC, email address, mobile number, nominee details with AMC and are also advised to link their PAN with Aadhaar Number. Further, Unit holders can view the Investor Charter available on website of the Fund as well as check for any unclaimed redemptions or Income Distribution cum Capital Withdrawal ('IDCW') payments.

Place: Mumbai Date: March 10, 2025

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.





एचडीएफसी बँक लिमिटेड, विशेष परिचालन विभाग, प्रथम तल, प्रणय टॉवर,

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु) ।नियम ८(1)।

जबकि, अश्वोहस्ताक्षरकर्ता ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय बैंक भवन, सेनापति बापत मार्ग, लोबर परेल मुंबई– 400013 में तथा जिसका एक कार्यालय एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, विशेष परिचालन विभाग में स्थित है, के प्राधिकृत नुष्युच्य न्याच्या त्राप्त प्रश्निक क्षेत्र के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गिमीण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गर अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गिमीण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावनी 2002 के नियम 3 के साथ पत्तित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगातर्गत स्था पांवर सिस्टम्स एंड एक्स—रे शांपी (मुख्य जवारकर्ता / बंबककर्ता) इसके स्वामी श्री शरद सिंघल द्वारा प्रतिनिविदत, पंजीकृत कार्यालय : च नगर निगम पश्चिमी गेट के सामने, बरेली— 243005 (उत्तर प्रदेश), अन्य पता यहाँ पर मी :— नगरपालिका सं. 994 n— मकरंदपुर सरकार, परगना, तहसील और जनपद— बरेली (उत्तर प्रदेश), 2. श्री शरद शिंघल पुत्र श्री चिरंजीव स विचल (स्वामी / बंबककर्ता / गारंटए) अ/12, बन्तरारि मार्ग, गोंबी नगर, बरेली- 243122 (उत्तर प्रदेश), 3 श्रीमती ऋतु विचल पत्नी शरद विचल (स्वामी / बंबककर्ता / गारंटए) 31/12, बन्वेतरि मार्ग, गोंबी नगर, बरेली-243122 (उत्तर प्रदेश) को, सूचन में अंकित राशि, 20.11.2023 और 12.12.2023 के अनुसार रु. 23,45,187.70/— (रुपये तेईस लाख पैतालीस हजार एक सौ सत्ता **और सत्तर पैसे मात्र)** का राशि पर नियत व्याज के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगत करने को कहा गया था। उधारकर्ता, गारंटर(गण) तथा बंधककर्ता(गण) निधारित राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके अतपुब एतदहारा उधारकर्ता, गारंटर(गें) तथा बंधककर्ता(ओं) और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता रचडीएफसी बँक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली के नियम को अधिग्रहण कर लिया है। उघारकर्ता, गारंटर(रॉ) तथा बंघककर्ता(ऑ) को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदृद्वारा सामान क्रय में मातकान किया जाता है कि वे निम्न वर्णित संपत्ति के साथ लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देर रुप न पांचवाना कथा जाता है कि व नान्न वांपात पांचार के साथ लान्न्यन न कर आर पांचार के साथ काइ मा लान्न्य: प्रथमेला अंकित एक पांचि तथा पांची पर नियत व्याज हेतु एक्कीएफ्सी कैंक लिमिटेड के प्रमारावींन होना। ज्यारकर्ती [गारंटए(गें) / बंधककर्ता(अंगे) का ध्यान, प्रतिमूत परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त कराने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनिय की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ı	अचल संपत्ति का विवरण	बंधककर्ता
ı	अचल संपत्ति नगरपालिका संख्या 994, जो मोहल्ला– मकरंदपुर सरकार, परगना, तहसील और	
	जनपद- बरेली (उत्तर प्रदेश) में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :- पूर्व- विक्रेता की दुकान	
	और अन्य की दुकान, पश्चिम— विक्रेता किरायेदार श्री राजन गुप्ता की दुकान, उत्तर— रोड 9'5" चौड़ी	चिरंजीव सरन
-1	उसके बाद श्री प्रेम प्रकाश जायसवाल की दुकान, दक्षिण— हरीश का घर।	
L	दिनौंक : 07/03/2025, स्थान : बरेली प्राधिकृत अधिकारी, एच	ाडीएफसी बैंक लिमिटेड

आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड, एक्सप्रेस जोन, ए विंग, 8वाँ तल, वेस्ट ANAND RATHI कब्जा नोटिस सं. सं.: APPL00005235

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ (२००२ का अधिनियम 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एव पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा 2 के तहत आनंद राठी लोबल फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने **मांग सूचना (विवरण विशेषरूप से नीचे तालिका में** उल्लिखित है, यहाँ आगे मांग सूचना) जारी की थी जिसमें कर्जदार(ऑ) (विवरण विशेषरूप से नीचे **तालिका में उल्लिखित है, यहाँ आँगे कर्जदार(ऑ))** को मांग सूचना में उल्लिखित राशि भुगतान और∕या एआरजीएफएल द्वारा वसूली तक अनुबंधित ब्याज दर से इस पर आगे और भविष्य की ब्याज, मांग स ठी तारीख से लागतों एवं प्रभारों और अन्य देय धनराशियों (यदि हों), को मांग सूचना **(यहाँ आगे देय** राशि) प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए कहा गया।

कर्जदार(ओं) और जमानती(ओं) द्वारा देय राशि अदा करने में असफल रहने पर यहाँ नीचे उल्लिखित कर्जदार रूप से और सर्व सामान्य को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (पवर्तन) नियमावली २००२ के नियम ८ के साथ प्रतित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एव पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्राप्त शक्तियों । प्रयोग कर अधोल्लिखित संपत्तियों / प्रत्याभूत परिसंपत्तियों (मांग सूचना के तहत यथापरिभाषित) का गहाँ नीचे विशेष रूप से उल्लिखित तारीख को सांकेविक कबना ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और सह–कर्जदार(ओं) और सर्व साधारण को सामान्य रूप में संपत्तियों / प्रत्याभूत परिसंपत्तियों से कोई लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्तियों / प्रत्याभुत परिसंपत्तियों के साथ कोई भी लेन–देन यहाँ **बकाया राशि** (यहाँ नीचे विशेष रूप से उल्लिखित) और गुगतान और∕या एआरजीएफएल द्वारा वसूली तक अनुबंधित ब्याज दर से इस पर आगे और भविष्य की व्याज, लागतों एवं प्रभारों और अन्य देय धनराशियों (यदि हों), के लिए **आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड** प्रभार के अधीन होगा। उपलब्ध समय के संबंध में प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

कुर्जदार(ओं) के नाम और पतेः मेसर्स बी.आर. एंटरप्राईजेज, एच / 251 गोविंदपुरम गाजियाबाद, उत्तर सह-कर्जदार(ओं) के नाम और पतेः 1. श्री अखिल उज्ज्वल, फ्लैट नं.- एसएम 2 दूसरा तल, प्लॉट न 7, शालीमार गार्डन एक्स. 2 साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201005 **2 श्रीमती नीलम.** फ्लैट नं मजी–2, भूतल, प्लॉट नं. सी–47 ब्लॉक सी, शालीमार गार्डन एक्स. 2 साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश—201005 **३. श्री आनंद पाल सिंह,** 1 ∕ 5563, गली नं. 16, बलबीर नगर एक्सटेंशन शाहदरा, दिल्ली—110032

देय राशि मांग सूचना के अनुसार आगे की यथालागू	आरओआई	13.25%
	मुलधन बकाया	2,017,055
ब्याज सहितः रु. 21,40,792 / — (रुपये इक्कीस लाख	लंबित ईएमआई राशि	89,511
चालीस हजार सात सौ बानवे मात्र)	ब्रोकन अवधि ब्याज	1,485
,	अतिदेय ब्याज	7,741
मांग सूचना की तारीखः 12 दिसंबर, 2024	विधिक प्रभार	13,540
ऋण करार सं.: APPL00005235	नोटिस प्रभार	1,100
	ईएमआई बाउंस प्रभार	10,360
कब्जे की तारीखः 10 मार्च, 2025	ं कुल बकाया	21,40,792
मंगि का प्रमा पर्वेच मं प्राप्ती व वास्त्र प्राप्तार्थनी परं	र गारून एन अधिकार रहिन	

संपत्ति का पता:-- फ्लैट नं. एमजी--2, भूतल, एमआईजी, फ्रंट साइड छत्त अधिकार रहित, एरिया 65.03 वर्ग मीटर, प्लॉट नं. सी-47 पर निर्मित, ब्लॉक सी, आवासीय कॉलोनी शालीमार गार्डन एक्सटेंशन हदबस्त ग्राम पसौंदा, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201005। **संपत्ति की** सीमाएँ: पूर्वः सर्विस लेन, पश्चिमः ४० फुट चौड़ा रोड, उत्तरः प्लॉट नं. सी-४६, दक्षिणः प्लॉट नं. सी-४८

> जेएचएस स्वेंडगार्ड रिटेल वेंचर्स लिमिटेड कॉरपोरेट आईडेंटिटी नम्बर: L52100HR2007PLC093324

पंजीकृत कार्यालयः पांचवीं मंजिल, प्लॉट नं. 107, सेक्टर-44 इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा, भारत, 122001

दरभाष सं .: +91-8130707481 . फैक्स सं .: 011-26900434

वेबसाइटः www.jhsretail.com ई-मेलः cs@jhsretail.com

असाधारण आम बैठक की सूचना तथा रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी

रतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम

क साथ पठित परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी

2021, 14 दिसम्बर, 2021, 5 मई, 2022, 28 दिसम्बर, 2022, 25 सितम्बर, 2023 तथ

19 सितम्बर, 2024 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दिनांक 03 अक्टूबर

2024 को जारी परिपत्र (सामूहिक रूप से परिपत्र कहा गया है) के प्रावधानों के अनुसार ईजीएम

की सूचना में यथा निर्धारित व्यवसायिक पहलुओं पर चर्चा करने के लिए एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बगैर वीडियों कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधानें

(ओएवीएम) के जरिए जेएचएस स्वेंडगार्ड रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों

की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) **गुरुवार, 03 अप्रैल,2025 को दोपहर 12.00 बजे**

ईजीएम की सचना **10 मार्च, 2025** को उस सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिनके ईमेल

आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटों के साथ पंजीकृत हैं। सदस्यगण इसे कंपनी की वेबसाइट

www.jhsretail.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड (बीएसई) तथा नेशनल

स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (**एनएसई**) की वेबसाइट **www.bseindia.com** तथा

www.nseindia.com क्रमशः तथा कंपनी के पंजीयक एवं अंतरण एजेंट अलंकित असाइमेंट्स

लेमिटेड की वेबसाइट : https://www.alankit.com/registrar-and-share-transfer-agen

सदस्यों द्वारा ईमेल के जरिए **cs@jhsretail.com** पर कंपनी के पास अनुरोध भेजने पर ईजीएग

रिमोट ई-वोटिंग एवं ईजीएम में ई-वोटिंग

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा ईजीएम में सदस्यों द्वारा वो

डालने की सविधा **('ई-वोटिंग')** प्रदान की जाएगी और इसकी विस्तत प्रक्रिया ईजीएम की सचन

ों प्रदान की जाएगी। **रिमोट ई-वोटिंग** की अवधि **सोमवार, 31 मार्च, 2025 (सुबह 09**:00

बजे) से आरम्भ होगी तथा बुधवार, 02 अप्रैल, 2025 (अपराह्न 05:00 बजे) समाप्त होगी इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य, जो अंतिम तारीख यानी 26 **मार्च, 2025** तक भौतिक

रूप में अथवा डिमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखते हैं, वे अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग द्वारा या

ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा डाल सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अंतिम तारीख को सदस्य नहीं

है. उसे इस सचना को केवल जानकारी के उद्देश्य के रूप में समझे। वीसी के माध्यम से भाग लेने

वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए गिना जाएगा।

जो व्यक्ति ईजीएम की सचना भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण किया है ए

कंपनी के सदस्य बने हैं तथा शेयर रखते हैं तथा वोट डालने के पात्र हैं. वे ईजीएम क

सूचना में दिए गए लॉगिन आईडी और पासवर्ड सृजित करने की प्रक्रिया का अनुसरण कर

सकते हैं। ऐसे व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनडीएसएल के साथ पंजीकृत है, त

सदस्य ध्यान दें किः क) वोटिंग के लिए उपरोक्त तिथि और समय के बाद एनडीएसएल द्वार

रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा किसी

प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनमति नहीं दी जाएगी

ख) जिन सदस्यों ने ईजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल चुके

हैं वे भी र्दजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने का अधिकार नहीं होगा

ग) इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप के माध्यम से वोट डालने की सविधा ईजीएम में उपलब्ध कराई

जाएगी तथा घ) जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखरखाव

किए गए लाभार्थी स्वत्वाधिकारी के रजिस्टर में दर्ज है, उन्हें रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ

n ो सदस्य भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखते हैं और उनके ई-मेल पते कंपनी/उनके संबंधित

डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटों के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल पता जल्द

से जल्द कंपनी को सहायक दस्तावेजों के साथ आईएसआर-1 प्रपत्र (कंपनी की वेबसाइट

https://wwwjhsretail.com पर उपलब्ध) जमा कर पंजीकृत कराएं। डीमैट प्रारूप में शेयर

रखने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटों के साथ अपना ईमेल पता अपडेट कर सकते हैं

कंपनी ने ईजीएम और बैठक के दौरान मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके

संचालित करने के लिए श्री मोहित दहिया (सीपी नंबर 23052) मैसर्स दहिया एंड एसोसिएटस

ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत निर्देश के लिए, शेयरधारक कृपया ईजीएम की सूचना में 'नोट्स

अनुभाग देख सकते हैं। रिगोट ई-वोटिंग और ईजीएम में वोटिंग के संबंध में कोई भी समस्या तथ

मुद्दा सहित कोई भी प्रश्न रहने पर आप ईजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता की

. गवश्यकता वाले सदस्यों के लिए फ्रिक्वेंटली आसक्ड क्वैश्चन्स (एफएक्यू) और वेबसाइट

www.evoting.nsdl.com पर 'डाउनलोड सेक्शन' के अंतर्गत उपलब्ध सदस्यों के लिए

ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं। आप एनएसडीएल के टोल-फ्री नंबर 1800-1020-990

तथा 1800 22 44 30 या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल से निर्दिष्ट ई-मेल

आईडीः evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मतदान से संबंधित

निदेशक मंडल के आदेशानसार

हस्ता

कुलदीप जंगजीर

कंपनी सचि

ईजीएम में वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का अधिकार होगाः

नई दिल्ली के साझेदार को जांचकर्ता के रूप में नियक्त किया है।

शेकायतों का समाधान करेंगे

तारीखः 10.03.2025

स्थान: नर्ड दिल्ली

वे वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं;

की सूचना में उल्लेखित दस्तावेज निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध रहेंगे।

आयोजित होगी।

पर भी देख सकते हैं।

हस्ता./— आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड प्राधिकृत अधिकारी दिनांकः 10 मार्च, 2025 स्थानः दिल्ली

खुदरा आहित केब्द्र, : ऐक्सिस बैंक िंठ, ऐक्सिस हाउस, टावर टी-2, द्वितीय तल, आई-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सपेवे, जेपी बीन्स विद्यटाउ नोएडा (उ.प.)-201301, ऐक्सिस बैंक कि., ऐक्सिस बैंक कि. दिल्छी वेस्ट आरएसी-बी-1/633, श्रू तल, जनकपुरी, नई दिल्छी-110058, कार्याल AXIS BANK -ऐक्सिस बैंक लि., ऐक्सिस बैंक लि. के-10, द्वितीय तल, सेक्टर-18, नोएडा-201301, कार्पोटेट कार्यालय : ब्लॉक-बी, बॉम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई-400025 पंजीकृत कार्यालय : 'त्रिशूल', तृतीय तल, समर्थेखर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006

गंग सुचना जबकि यहां नीचे वर्णित कर्जदारों /सह-कर्जदारों /गारंटरों /बंधकदाताओं ने ऐक्सिस बैंक तिमिटेड से बित्तीय सहायता प्राप्त की थी। हम स्पष्ट करते हैं कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बावजूद, कर्जदारों /गारंटरों /बंधकदाताओं ने ब्याज और मुल्यम का प्रतिभुगतान, देय तिथि के अनुसार, करने में अनेक चूक की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों /मारंदरों सिद्धांतों अनुसार उत्तर खाता यहां नीचे वर्णित संबंधित तिथियों को अनार्जक आरित के रूप में वर्गोंकृत किया गया है, जो ऐत्यास के तिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हाग वित्तीय आरित्तों का प्रतिभृतिक और पुनर्निर्माण क्या प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयन, 2002 के अधीन तथा प्रतिभृति हित (प्रतिन) नियमावर्जी, 2002 के नियम 3 के साथ पित वारा 13(2) के तहत प्रतत्त शक्तियों का करते हुए सरफासी अधिनयम, 2002 की धारा 13(2) के तहत यहां नीचे वर्णित संबंधित तिथियों को जारी की गई सूचनओं का परिणाम था, जिनमें निम्नतिखित कर्जदारों /गारंटरों /बंधकदाता से मांग सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान, भुगतान की तिथि तक, सूचना में वर्णित संविदात्मक दर पर आगे ब्याज तथा अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित, उक्त सू ग्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। उनको, उनके अंतिम ज्ञात पतों पर भेजी गई सूचनाएं अ–वितरित के रूप में वापस प्राप्त की जा चुकी हैं और इसलिए उस बारे में, एतदद्वारा सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचना दी जा रही है।

कर्जदार का नाम /पता/सह-कर्जदार	बकाया राशि (रू.)	एनपीए तिथि
एवं गारंटर का नाम	(,	मांग सूचना की तिथि
1. श्री संतोष पुत्र दर्शन लाल निवासी प्लॉट नंबर 74, राम नगर कालोनी, कठेरा, दादरी, जी.बी. नगर, उत्तर	रू. 5,86,928 /- (रूपये पांच	ऋण राशि (रू.)
प्रदेश, अन्य पता – श्री संतोष पुत्र दर्शन लाल निवासी पलैट नंबर 304—सी, द्वितीय तल, ब्लॉक—एसके—।।, सेक्टर—93, नोएडा, गौतमबुद्ध नंबर, उत्तर प्रदेश—201301 2. श्रीमती दीपा पत्नी संतोष निवासी प्लॉट नंबर	लाख छियासी हजार नौ	15-09-2023
74, राम नगर कालोंनी, कठेरा, दादरी, जी.बी. नगर, उत्तर प्रदेश, अन्य पता — श्रीमती दीपा पत्नी संतीष	सा अठ्ठाइस मात्र)	28-01-2025
निवासी प्लैट नंबर 304—सी, द्वितीय तल, ब्लॉक—एसके—।।, सेक्टर—93, नोएडा, गौतमबुद्ध नंबर, उत्तर प्रदेश—201301		₹5. 5,08,595 / −

प्रत्यानूत आस्तियों का सम्पत्ति पता : आवासीय श्रमिक कुंज द्वितीय तल, पलैट नंबर 304-सी, सुपर एरिया परिमाप 19.70 वर्ग मीटर, स्थित : ब्लॉक-एसके-11, सेक्टर-93, नोएड जिला गौतमबुद्ध नंबर, उत्तर प्रदेश-201301 और चौहदेदी निम्मानुसार – पूरब – साइट प्लान के अनुसार, परिचम – साइट प्लान के अनुसार, दक्षिण - साइट प्लान के अनुसार

दिनांक : 11–03–2025, स्थान : नोएडा, उत्तर प्रदेश

बजाज फाइबैंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बजाज फाइनैंस लिमिटेड, ऑफ पुणे—अहमदनगर रोड, विमान नगर, पुणे — 411014

गाखा कार्यालय : बजाज फाइनैंस लिमिटेड, नंबर 344, प्रथम तल, मेवाड़ प्लाजा, रावतभाटा मेन रोड, गुमानपुरा, कोटा, राजस्थान—324007

B FINSERV

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) (प्रतिशति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साध्य पठित परिशिष्ट-IV के अनुसार)

जबकि, अबोहस्ताक्षरी ने **बजाज फाइनैंस लिमिटेंट (बिएफएल)** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रामृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयस 2002 के प्रावधानों के अधीन और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रवर्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदार(तों) /सह कर्जदार(रों) को मांग सुचना(एं) **पंजीकृत अक द्वारा 'सूचना')** जारी की थीं, जिनमें उनसे उक्त अधिनियम की घारा 13(2) के तहत सूचना में वर्णित बकाया राशि हा मुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के मीतर करने की मांग की गई थी।

मन नामक कर्जदार/बंधकदाता/गारंटर उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतदद्वारा कर्जदारों/बंधकदाताओं/ गारंटरों और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि घोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां गिचे वर्णित संपत्ति का **सांकेतिक कब्जा** ले लिया है।

रुर्जदारों को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को सामान्य रूप से इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी व्यवहार कर्जदारों पर बजाज फाइनैंस लिमिटेड की यहां नीचे वर्णित राशि तथा उस पर आगे संविदाकत दर पर ब्याज के प्रभार के अधीन होगा। र्जदार का ध्यान, प्रत्याभृत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट कि

ऋण खाता संख्या / कर्जदार(रों) / बंघकदाता(ओं) / गारंटर(रों) का नाम एवं पता	प्रत्याभूत अचल सम्पत्ति का वर्णन	धारा 13(2) के तहत सूचना की तिथि और धारा 13(2) के तहत सूचना की राशि तथा कब्जा की तिथि
522L.P21084772 भार्सेल इंगोटेक प्राइवेट लिमिटेड (कर्णवार) पता :— दुकान नंबर 146, गणेशम कॉम्प्लेक्स, कोटरी गुमानपुरा रोड, कोटा, राजास्थान—324007 राजीव भार्गव (सह—कर्णवार) एवं अमिता भार्गव (सह—कर्णवार) भोडित मार्गव (सह—कर्णवार) सभी का पता :— प्रकाश कुंज सब्जी मार्किट, नयापुरा, नयापुरा, कोटा, राजस्थान—324001	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लॉट नंबर 146, गणेशन कॉम्प्लेक्स, वल्लम बारी, कोटा-324007 में अवस्थित सम्पत्ति भू तल कमरा, भूमि क्षेत्रफल 243.75 वर्ग फीट, छत के अधिकार नहीं तथा दीपश्री परिसर तिलक नगर छावनी झालावाड़ रोड, कोटा 324007 में अवस्थित दुकान नंबर 15 (मेजनीन) भूमि क्षेत्रफल 302 वर्ग फीट, छत के अधिकार नहीं।	21-11-2024 % 54.87.488/- (रूपये चीवन लाख सतासी हजार चार सौ अङ्सठ मात्र) 15-11-2024 तक कब्जा तिथि 06-03-2025
तिथि : 11-03-2025 स्थान :- कोटा	हस्ता./- प्राचिकृत अधि	कारी, बजाज फाइनैंस लिभिटेड

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ् फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

١	अनु.	कर्जदाता (ओं) का नाम	गिरवी संपत्ति(यों)	एन.पी.ए की	बकाया राशि			
١	क्र.	(y)	का विवरण	तारीख	(रू.)			
ı		```	(बी)	(सी)	(륑)			
	1.	कर्ज खाता क्र. HLLAMOR00514744		03.01.2025	रु. 20,99,430.11/- (रुपए बीस			
١		1. हीरा लाल	167-बीए 183/1-एए का हिस्सा,		लाख निन्यानवे हजार चार सौ तीस			
١			वाकया मौजा भदौरा महावीर कॉलोनी,		और ग्यारह पैसे मात्र)			
١		2. गोरा रानी	तहसील और जिला मुरादाबाद-		17.02.2025 के अनुसार			
l			244001, उत्तर प्रदेश।					
ĺ	कि उ	के ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम						

बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है। उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है । परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्द्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर स्रक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता'

सरफेसी अधिनियमन की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रावधान के संदर्भ में. आप इस प्रकार बिकी, पड़े के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं। कृते सम्मान फिनसर्व लिमिटेड

(पहले इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : मुरादाबाद नोट : हमारा स्वमान फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से कोई संबंध नहीं है।

Mahindra

महिल्हा रूरल हाउसिंग फाइबैंस लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय :- महिन्दा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड. साधना हाउस. द्वितीय तल. सुचना 570. पी.बी. मार्ग वर्ली. मंबई-400 018. भारत. फोन : +91 22 66523500 फैस : +91 22 24972741 आंचलिक कार्यालय : अशोक राज टावर, द्वितीय तल. सी.पी. 162. सेक्टर डी. एलडीए कालोनी, कानपर रोड, निकट पावर हाउस

वौराहा. लखनऊ. उत्तर प्रदेश—226005. **शाखा कार्यालय :** नंबर ४०३. चतर्थ तल. बिजनेस स्क्वायर, सेक्टर–१२. आवास विकास कालोनी, संजय प्लेस, आगरा, उत्तर प्रदेश–282004

(अचल सम्पत्ति के लिए) (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम ८(१) के अधीन) जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, मैसर्स महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (इसमें आगे "एमआरएचएफएल" कही गई है), जिसका पंजीकृत कार्यालय **त्रखनऊ** में और शाखा कार्यालय **आगरा** में स्थित है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभुति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन और प्रतिभुति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन आप कर्जदारों (नाम और पता नीचे वर्णित) को मांग सूचना जारी की थी, जिसमें उक्त सूचना में वर्णित बकाया राशि, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के

भीतर चकाने की मांग की गई थी। उपरिवर्णित कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतदुद्वारा उपरिवर्णित कर्जदारों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि घोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तेन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की घारा 13 की उप–धारा (4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवर्णित संपत्ति का **कब्जा** दिनांक **10–03–2025** को ले लिया है।

वेशेष रूप से कर्जदारों को तथा सर्वसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेत सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार मैसर्स महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड की बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की

क्र.	कर्जदार(रों) / गारंटर(रों)	प्रत्याभूत आस्ति का वर्णन	मांग सूचना	कब्जा
सं.	का नाम	(अचल सम्पत्ति)	तिथि एवं राशि	की तिथि
1.	एलली नंबर : 801802/ आगरा शाखा) आरिक खान (कर्जवार) हबीब अहमद, सलीमन बेगम (सह-कर्जवार) कासिम अली (गारंटर)	प्लॉट स्थित खसरा नंबर 863, साहब खान निकट सराय हज्जाम, मौजा नाराइम, तहसील ऐतमादपुर, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश —283202 पूरब : सुलेमान का प्लॉट, पश्चिम : 15 फीट चौड़ी रोड, उत्तर : अन्य का प्लॉट, दक्षिण : अलीशा का प्लॉट,	30052022 ₹5. 6,53,243 / -	10—03—2025 भौतिक कब्जा

स्थान : आगरा तिथि : 11-03-2025

ओर आकष्ट किया जाता है।

हस्ता /- प्राधिकृत अधिकारी, महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड



एलआईसी हाऊसिंग फाईनेंस लिमिटेड

बैक ऑफिसः लक्ष्मी इंश्योरेन्स बिल्डिंग, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 परिशिष्ट ।∨ [नियम 8(1)] कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु)

जबिक, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्या. 3) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नोटिस में उल्लिखित राशि जो नीचे वर्णित है + इस पर ब्याज व प्रोद्भूत अन्य प्रभारों को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए नीचे वर्णित कर्जदार(ओं) को नीचे वर्णित मांग नोटिस जारी किया था।

कर्जदार द्वारा राशि अदा न कर पाने पर कर्जदार और सर्व सामान्य को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अध्यादेश की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का नीचे तालिका में प्रत्येक खाते के लिए उल्लिखित तारीख को **सांकेतिक कब्जा** ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और सर्व जन को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन नीचे निर्दिष्ट राशि + उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर इस पर ब्याज व प्रोद्भूत अन्य प्रभारों के लिए एलआईसी हाऊसिंग फाइनेंस लि. के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	आवेदक(ओं) और सह—आवेदक(ओं) के नाम	का ।ववरण	मांग नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस की तारीख	मांग नोटिस के अनुसार राशि	कब्जे का प्रकार
1.	आवेदक (ऑ):	गाँव नवादा माजरा	22.11.2024	07.03.2025	₹ 49,63,105.06	सांकेतिक
	श्री राहुल भटनागर	एरिया, हस्तसाल,	ા ખાર કરા ૧	र ब्याज एवं	अन्य प्रभार	कब्जा
	जमानती(ऑ):—	दिल्ली राज्य, दिल्ली,	`	•		
	श्री संजय कुमार	मोहन गार्डन नाम की कॉलोनी, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 स्थित निर्मित				स्थित निर्मित
	ऋण खाताः 3001020000974	संपत्ति नं. बी–218–ए/1, दूसरा तल, छत/टेरेस अधिकार सहित, एरिया माप				
	76.5 वर्ग गज अर्थात 63.96 वर्ग					

की जमीन में समानुपातिक अविभाजित अधिकारों सहित, बिल्डिंग की कॉमन सीढ़ियों, रास्तों और सुविधाओं सहित बकाया राशि उपर्युक्त उल्लिखित राशि और मांग नोटिस की तारीख से इस पर प्रोद्भूत आगे की ब्याज और अन्य प्रभार।

	सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्श	न ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट	: ऑफ सिक्योरिटी	इंटरेस्ट एक्ट, 2002
		(अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत र	पूचना	
अनु.	कर्जदाता (ओं) का नाम	गिरवी संपत्ति(यों)	एन.पी.ए की	बकाया राशि
क्र.	(y)	का विवरण	तारीख	(₹.)
	(),	(बी)	(सी)	(डी)
1.	कर्ज खाता क्र. HHLDIP00189426	फ्लैट नंबर डी-702, 7वीं मंजिल,	08.02.2025	रु. 25,12,131.12/- (रुपए पद्यीस
	1. नरेश चंद वर्मा	टावर–डी, ला कासा डुंडाहेड़ा, एन एच–		लाख बारह हजार एक सौ इकतीस
	2. गीता वर्मा	2, गाज़ियाबाद-201009, उत्तर प्रदेश।		और बारह पैसे मात्र) 17.02.2025
	3. रजनी देवी (गारंटर)			के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है। उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदुद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि , वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता' सरफेसी अधिनियमन की धारा 13 की उप–धारा (13) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।

> कते सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

प्राधिकृत अधिकारी नोट : हमारा स्वमान फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से कोई संबंध नहीं है।

	सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्श	न ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत र	ट ऑफ सिक्योरिर्ट सचना	ो इंटरेस्ट एक्ट, 2002
अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. HHLDMT00446137 1. संजय कुमार प्रोपराइटर पूजा रोड लाइन्स 2. उषा अग्रवाल	पूरी पहली मंजिल, प्लॉट नंबर 181, ब्लॉक-ई, पॉकेट ई-21, सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली-110085।	03.02.2025	रू. 25,18,777.36/- (रूपए पद्यीस लाख अठारह हजार सात सौ सतहत्तर और छत्तीस पैसे मात्र) 19.02.2025 के अनुसार
2.	कर्ज खाता क्र. HLAPLAJ00341429 1. अक्षय कुमार कोहली प्रोपराइटर भारत पुस्तक भंडार 2. माधवी कोहली 3. सुधीर कुमार उर्फ सुधीर कोहली	मकान नंबर 499/4, (कोने वाला भाग), खसरा नंबर 638 मिन, चंदन वाड़ी, भोला नाथ नगर, शाहदरा, नई दिल्ली-110032, दिल्ली।	03.02.2025	रु. 56,84,994.55/- (रुपए छप्पन लाख चौरासी हजार नौ सौ चौरानवे और पचपन पैसे मात्र) 07.02.2025 के अनुसार
3.	कर्ज खाता क्र. HHLDMT00484134 1. मोहित कुमार अग्रवाल प्रोपराइटर ए.एम. एडहेसिव्स 2. प्रीति गोयल प्रोपराइटर डीडी सेल्स	फ्लैट नंबर 0602, टावर नंबर वी3, मंजिल नंबर 6, किंग्सबरी अपार्टमेंट, टीडीआई सिटी, कुंडली, सोनीपत- 131001, हरियाणा।	03.02.2025	रू. 31,30,080.63/- (रूपए इकतीस लाख तीस हजार अस्सी और तिरेसठ पैसे मात्र) 19.02.2025 के अनुसार
4.	कर्ज खाता क्र. HHLLAJ00395971 1. श्री कृष्ण रोहिल्ला उर्फ श्री कृष्ण 2. अंजू रानी	यूनिट नंबर-डब्ल्यूएफ-61/एसएफ दूसरी मंजिल, वाटरसाइड फ्लोर्स, लेक ग्रोव सिटी में, कुंडली सोनीपत- 131028, हरियाणा।	03.02.2025	रू. 28,68,671.32/- (रूपए अड्डाईस लाख अइसठ हजार छह सौ इकहत्तर और बतीस पैसे मात्र) 19.02.2025 के अनुसार

के ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आग् बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है। उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा ोमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्द्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सुचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता'' सरफेसी अधिनियमन की धारा 13 की उप–धारा (13) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।

> कृते सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) प्राधिकत अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली / सोनीपत

नोट : हमारा स्वमान फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से कोई संबंध नहीं है।



पीटीसी इंडिया लिमिटेड

सीआईएन : L40105DL1999PLC099328 पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल, एनबीसीसी टॉवर, 15 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066

वेबसाइट : टेलीफोन : 011-41659500, 41595100, 46484200. फैक्स : 011-41659144 ई-मेल : info@ptcindia.com वेबसाइट : www.ptcindia.com

पोस्टल बैलट की सूचना

एतदद्वारा सदस्यों को सचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और 110 के प्रावधानों और अन्य लाग प्रावधानों के साथ कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 और 22, (सामृहिक रूप से "अधिनियम") भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण . दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियमावली") के विनियम ४४, भारतीय कम्पनी सचिव संरथान द्वारा जारी सचिवीय मानक—2 और अन्य लागू कानून और विनियमन, यदि कोई हो, जिसमें कोई वैधानिक संशोधन, पुनः अधिनियमन शामिल है, जो वर्तमान में लागू है, के अनुसार पीटीसी इंडिया लिमिटेड ("कम्पनी") अपने सदस्यों से पोस्टल बैलट नोटिस दिनांकित 10 मार्च, 2025 (पोस्टल बैलट नोटिस") में निर्धारित प्रस्ताव को केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("ई–वोटिंग / रिमोट ई–वोटिंग") के माध्यम से पारित करने के लिए अनुमोदन मांग रही है।

अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार और कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, अन्य बातों के साथ–साथ, सामान्य परिपत्र संख्या 14 / 2020 (दिनांक 8 अप्रैल 2020) और कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम परिपत्र संख्या 9 / 2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी –पीओडी –2 / पी / सीआईआर / 2024 / 133 दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 के माध्यम से ई—वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलट आयोजित करने के लिए, उन सभी सदस्यों को ईमेल के माध्यम से रिमोट ई—वोटिंग के बारे में निर्देशों के साथ पोस्टल बैलट सुचना भेजने की प्रक्रिया 10 मार्च, 2025 को पूरी हो चुकी है, जिनके ईमेल पते कम्पनी या डिपॉजिटरी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों या कम्पनी के रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट ("आरटीए") के साथ पंजीकृत हैं और जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थी स्वामियों की सूची में शुक्रवार, 07 मार्च, 2025 ("कट—ऑफ तिथि") तक दर्ज मौजूद हैं।

एमसीए परिपत्रों की आवश्यकताओं के अनुपालन में, इस पोस्टल बैलट के लिए पोस्टल मतपत्र और प्रीपेड बिजनेस लिफाफे के साथ) पोस्टल बैलट सूचना की भौतिक प्रति सदस्यों को नहीं भेजी जाएगी और सदस्यों को केवल रिमोट ई—वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करनी होगी। कम्पनी ने रिमोट ई—वोटिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") को ई—वोटिंग एजेंसी के रूप में नियक्त किया है।

सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है कि

(क) रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 11 मार्च, 2025 (पूर्वा. 09.00 बजे आईएसटी) से शुरू होगी और बुधवार, 09 अप्रैल, 2025 (शाम 5.00 बजे आईएसटी) को सभी सदस्यों के लिए समाप्त होगी, चाहे वे भौतिक रूप में शेयर रखते हैं या डीमैट रूप में। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उक्त समय और तिथि के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार डाले गए वोट को बाद में बदला नहीं जा सकता है।

ंख) वह व्यक्ति जिसका नाम कट—ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 07 मार्च, 2025 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वह रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

(ग) श्री आशीष कपूर, कार्यरत कम्पनी सचिव (सदस्यता संख्या एफ8002, सीपी संख्या ७५०४) को अधिनियम एवं नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग की जांच करने के लिए कम्पनी द्वारा संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

(घ) पोस्टल बैलट / ई-वोटिंग के परिणाम रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति से 2 (दो) कार्य दिवसों के भीतर अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा घोषित किए जाएंगे और कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रदर्शित किए जाएंगे। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ परिणाम कम्पनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे और साथ ही स्टॉक एक्सचेंज और एनएसडीएल को भी सुचित किए जाएंगे।

(क) भौतिक रूप में शेयर धारक सदस्य जिन्होंने कम्पनी रजिस्ट्रार के पास अपना ई—मेल आईडी पंजीकृत / अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि

वे विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध फॉर्म आईएसआर-1 / पत्र <u>cs@ptcindia.com</u> पर प्रासंगिक विवरण, फोलियो नंबर और पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करके भेजकर एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड के साथ अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत / अपडेट करें। (ख) डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना ई–मेल आईडी पंजीकृत / अपडेट कर

अधिक जानकारी के लिए कृपया पोस्टल बैलट की सूचना देखें, यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट (<u>www.ptcindia.com</u>), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (<u>www.bseindia.com</u> और <u>www.nseindia.com</u>) और एनएसडीएल की वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर भी उपलब्ध है। इस सूचना की प्रति का इच्छुक कोई भी सदस्य हमें cs@ptcindia.com पर लिख सकता है। मतदान के लिए विस्तृत निर्देशों सहित अन्य विवरण कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध पोस्टल बैलट की सूचना में दिए गए हैं।

ई—वोटिंग सुविधा से संबंधित किसी भी प्रश्न / समस्या के मामले में, आप <u>www.evoting.nsdl.com</u> के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, चतुर्थ तल, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल मुंबई-400013, भारत से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा 022—4886 7000 / <u>e-voting@nsdl.com</u> पर सम्पर्क कर सकते हैं ।

बोर्ड के आदेश द्वारा वास्ते पीटीसी इंडिया लिमिटेड

> हस्ता. / (राजीव माहेश्वरी) कम्पनी सचिव

> > एफसीएस 4998

तिथि : 10 मार्च, 2025 स्थान : नई दिल्ली

दिनांकः 10.03.2025 स्थानः नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, एलआईसी हाऊसिंग फाइनेंस लि. सदस्यों से अनुरोध है कि वे नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके अपनी ईमेल आईडी स्थायी रूप से पंजीकृत करें :

OPINION

How technology can help in inflation forecasting

The integration of AI in economic forecasting, specifically inflation prediction, is a burgeoning field that leverages advancements in ML and natural language processing



& PULAK GHOSH

"Central banks must feel like they have stepped through a mirror, and who can blame them? They used to struggle to bring inflation down or keep it under control; now they toil to push it up. They used to fear wage increases; now they urge them on. They used to dread fiscal expansion; now they sometimes invoke it.'

- Claudio Borio, 2017, former head, Monetary and Economic Department, Bank for International Settlements


ast forward to 2022, when this cycle was reversed, and it was completely unanticipated. with the world engulfed with a vicious inflation cycle. However, such developments clearly reflected the significant scholastic challenges in monetary policymaking post the global financial crisis and in the aftermath of the pandemic. Interestingly, such challenges now also confront monetary policymaking in India, as we are recently witnessing. In essence, globalisation has acted as a powerful tool in contributing to extended periods of low and high inflation. Additionally, the entry of low-paid workers in the workforce at home and globally, as emerging markets have

opened up, has further complicated monetary policymaking.


Against this background, it is imperative that the economic research methodology at central banks (the Reserve Bank of India included) of forecasting macro variables like inflation keep pace with technological advancements. Remarkably, the new RBI governor has already emphasised the importance of such tools.

For example, the path of inflation trajectory in the future is fraught with uncertainties since opposite forces are at work. While food price outlook will continue to have a large impact on Consumer Price Index (CPI) inflation (the global food price index has been rising recently), geopolitical uncertainties, like threats of dumping and fall in global oil prices, would have a soothing impact on inflation. Gold prices could also have an impact as central banks had continued to buy gold in recent vears, diversifying the reserve base, Clearly, many competing forces are at work. This would also mean that the focus of economic research at central banks will have to be more nimble, agile and fleet-footed to support policymaking. In fact, emerging economy central banks, like the RBI, can take a clearly defined frontloaded initiative in this matter, just as it did recently in frontloading policy actions even before the Fed did.

The increasing adoption of large language models (LLMs) marks a significant shift in such economic research methodology. One important question to the central bank policymakers is: Can LLM be used to understand inflation quickly, more



GOOGLE TREND VS ACTUAL INFLATION: FY22-FY25 (Jan)



accurately and in the most costeffective way? Additionally, every central bank spends a lot of money on surveying consumers to understand inflation expectations. The obvious question is: Can LLMs replicate key patterns observed in human survey responses regarding inflation expectations? How do these models react to different types of economic information? Can they serve as reliable tools for aug-

menting traditional survey methods and informing policy design?

An LLM can be very useful in inflation estimation in two pri-

mary ways. First, by analysing vast amounts of text data from news articles, economic reports, and social media to identify trends and sentiment that might indicate future changes in price levels, potentially providing a

more nuanced and timely understanding of inflation compared to traditional methods that rely solely on numerical data. This can be particularly useful for "nowcasting" or short-term inflation forecasts. Improving classic inflation nowcasting techniques through the use of machine learning (ML) and artificial intelligence (AI) techniques to capture expectations is quite com-

mon now.

The integration of AI in economic forecasting, specifically inflation prediction, is a burgeoning field that leverages advancements in ML and natural language processing. Recent studies, such as the one conducted by Miguel Faria-e-Castro and Fernando Leibovici (2024) at the Federal Reserve Bank of St Louis, explore the potential of LLMs like Google's PaLM to generate accurate inflation forecasts. This research demonstrates that LLMs can produce much lower conditional inflation forecasts with lower mean-squared errors compared to traditional methods such as the Survey of Professional Forecasters over multiple years and forecast horizons. The findings suggest that AI-based models can offer an effective and cost-efficient alternative to traditional expert and survey-based forecasting methods. This study aligns with previous works like those by L Bybee (2023), who used GPT-3.5 to simulate economic expectations, and extends the understanding of how LLMs can be utilised for macroeconomic and financial predictions.

Another angle where LLM can be very useful is deploying AI agents — automated agents

using LLMs with predefined tasks — in structured inflation expectation surveys, and comparing their responses to human survey response data. This can be highly effective, and recent work explores this successfully.

The idea is simple and involves employing AI agents as participants in a survey experiment focused on household and consumer inflation expectations, rather than those of professional forecasters or firms. This focus is particularly valuable as household expectations play a crucial role in determining consumer behaviour and aggregate economic outcomes. while gathering large-scale household response data is often costly and time-consuming. This approach enables AI agents to access and incorporate external knowledge, demonstrating how they process real-world economic information. This approach is especially relevant given that household inflation expectations significantly influence central bank policy design and implementation.

The rapid adoption of generative AI (GAI) across economic sectors adds urgency to this research. Bick et al (2024) find that nearly 40 per cent of US adults used generative AI by August 2024, with 28 per cent using it at work. Aldasoro et al (2024) report almost half of US households use GAI tools. though usage varies significantly across demographic groups. As AI-assisted decision-making becomes more prevalent, understanding these patterns and their implications becomes increas-

ingly important (Korinek, 2023). However we must remember that there are several caveats in the use of LLMs for forecasting. First, these models are pretrained by their developers on specific datasets. The user of the LLM has no control over the data used to train these models and retraining them over subsets of data is typically not an option as it involves significant hardware requirements. The training data is typically not time-stamped. which prevents retraining the model on data up to a certain date. This limitation also makes it impossible to produce true outof-sample forecasts for all dates on which the model has been

trained. Second, publicly available models are regularly retrained by the developers, pos-

ing challenges to replicability. Despite these caveats, the time is ripe to take the first step towards assessing the potential of LLMs as forecasting tools. By comparing these simulated forecasts with the actual inflation data and forecasts from other sources, we can assess the poten tial accuracy and usefulness of LLMs in inflation forecasting

The accompanying graph shows the Google trends in inflation from India juxtaposed against the actual inflation. The Google trend inflation is indexed on a scale of 1-100, where a higher number, say, 70 indicates that the noise on inflation is 70 per cent of the all-time high at 100! The trends reveal that the Google trend has been a leading indicator of headline inflation. This was evident in January 2024 and May 2024 when headline inflation was declining but Google trend inflation was increasing. Headline inflation actually jumped thereafter.

We end with an interesting anecdote. Exit poll results for India in June 2024 did dent the credibility of pollsters. While almost all exit polls released on June 1 got their predictions terribly wrong, a more accurate analysis came from a research firm called Kcore Analytics. This company used artificial intelligence gathered from people's social media interactions (if we recollect, a large part of the campaigning for 2024 general elections were driven by unsubstantiated social media cacophony and narratives) - what they were reading, writing, and responding to on the internet to predict voter preferences. The analysis also used important data like inflation, which could influence elections. The results were almost spot on! Amongst all imprecise exit polls, this AI exit poll has truly been an outlier. Paraphrasing Milton Friedman differently: "Inflation everywhere is a monetary (and a political) phenomenon!

The authors are, respectively, Member, 16th Finance Commission, and Group Chief Economic Advisor, State Bank of India; and Professor, Indian Institute of Management Bangalore

MAITHON POWER LIMITED

(Contracts Department) Maithon Power Ltd, Village: Dambhui, PO Barbindia, PIN-828205, District-Dhanbac NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST

The Maithon Power Limited invites expression of interest from eligible vendors for the following packages:

Tender Description Supply of RAPH baskets & RAPH Seals & Spares for U#1 shut down in FY-26 2 Mill Reject removal - Unit -1 & 2-Ist & 2nd Year in Maithon Power Limited

For details of pre-qualification requirements, bid security, purchasing of tender document etc please visit our website URL- https://www.tatapower.com/tender

Eligible vendors willing to participate may submit their expression of interest along with the ender fee for issue of bid document latest by 20th- March 2025.

Mother Dairy Calcutta P.O. - Dankuni Coal Complex, Dist - Hooghly, Pin - 712310

Mother Dairy Calcutta invites e-tender for supplying of "Caustic Soda Lýe" on Annual Rate Contract basis. Please visit www wbtenders.gov.in and www.motherdairycalcutta. com for details. Last date of uploading of online offer is 27.03.2025 upto 03:00 pm.

Chief General Manager

UNITED SPIRITS LIMITED

DIAGEO

Regd. Office: 'UB Tower', # 24, Vittal Mallya Road, Bengaluru-560 001. Tel: +91 80 3985 6500; Fax: +91 80 3985 6862 Email: investor.india@diageo.com Website: www.diageoindia.com Corporate Identity Number: L01551KA1999PLC024991

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the Company has received requests from the following shareholders for issue of Duplicate Share Certificate(s) in lieu of the Original Share Certificate(s) reported to have been lost / misplaced. The share certificate(s) mentioned hereunder are therefore deemed to be cancelled and no transactions thereon would be recognized by the Company

SI. Folio No.	Name of the Shareholder	No. of	Certificate	Distinctive Nos		
No	No Folio No.		Shares	Number	From	То
01	MS138377	PREM KUMAR TACHOLI KARAYI	1000	6005	723215636	723216635
02	MS049185	HARSHADA PATIL MR BARUN DAS	500	1755	720796836	720797335

The public are hereby advised against dealing in any way with the above share certificates. Any person(s) who has / have any claims(s) in respect of the said share certificates should lodge such claim(s) along with all documentary evidences with the Company at its Registered Office within 7 days of the publication of this notice, after which no claim(s) will be entertained, and the Company will proceed to issue duplicate share certificates.

Place : Mumbai Dated: 10.03.2025 For UNITED SPIRITS LIMITED Mital Sanghvi (Company Secretary)

बेंक ऑफ़ बड़ीदा Bank of Baroda

PREMISES REQUIRED

Bank of Baroda invites offers from the Owners/ Power of Attorney Holders Bank of Baroda invites offers from the Owners/ Power of Attorney Holders of ready premises on Ownership/ rental basis at ground floor (having occupancy certificate with clear title) with 24 hours access, clear visibility with 3 phase power connection for shifting of existing branches. The intending offers shall submit their offers in sealed cover mentioning therein the description of building with a copy of floor plan and other terms and conditions such as rent (including property tax), period of lease, rental, deposit and other details to Bank of Baroda, Navi Mumbai Region, Vashi Pefore 5.00 pm of 31.03.2025. Priority would be given to the premises before 5.00 pm of 31.03.2025. Priority would be given to the premises belonging to Public Sector Units/ Govt Departments LOCATION

No.	(On outright purchase basis/ Rental basis on Ground floor)	Officeria	(approx)
	New Panvel Sec 19 (For Shifting of existing branch. Within 1 km radius of existing premises)	Urban	1300-1600 Sq.Ft.

For details please log in on tender section of our website www.bankofbaroda.com The Bank reserves its right to accept or reject any offer without assigning

Regional Manager Place: Navi Mumbai Bank of Baroda (Navi Mumbai Region)

PTC India

Date:10th March, 2025

Place: New Delhi

PTC India Limited

Regd. Office: 2nd Floor, NBCC Tower, 15 Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066 Website: Tel: 011-41659500, 41595100, 46484200. Fax: 011-41659144 E-mail: info@ptcindia.com Website: www.ptcindia.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108 and 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (cumulatively "Act"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard-2 issued by Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws and regulations, if any including any statutory modification (s), re-enactment (s) thereof, for the time being in force, PTC India Limited (the "Company") is seeking approval from its Members for passing of Resolution as set out in the Postal Ballot Notice dated 10th March, 2025 ("Postal Ballot Notice") by way of electronic voting ("e-voting/remote e-voting") only.

In terms of relevant provisions of the Act and in accordance with the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs, inter-alia, for conducting Postal Ballot through e-voting vide General Circular No. 14/2020 (dated 8th April 2020) and latest being Circular No. 9/2024 dated 19th September, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular/s") and circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 03rd October, 2024 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), the process of sending Postal Ballot Notice along with the instructions regarding remote e-voting through email to all those Members, whose email addresses is registered with the Company or with the Depositories/ Depository Participants or Registrar and Share Transfer Agent of the Company ("RTA") and whose names appear in the Register of Members/list of Beneficial Owners as on Friday, 07th March, 2025 ("Cut-Off Date"), has completed on 10th March, 2025.

In compliance with the requirements of the MCA Circulars, physical copy of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms and pre-paid business envelope will not be sent to the Members for this Postal Ballot and Members are required to communicate their assent or dissent through remote e-voting systems only. The Company has engaged National Securities Depository Limited ("NSDL") as e-voting agency for the purpose of providing remote e-voting services All the members are hereby informed that:

- (a) The remote e-voting period commences on Tuesday, 11th March, 2025 (09:00 A.M. IST) and will end on Wednesday, 09th April, 2025 (05:00 P.M. IST) for all the members, whether holding shares in physical form or in demat form. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said time and date. Vote once casted cannot be changed subsequently.
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by depositories as on Cut-Off date i.e. Friday, 07th March, 2025, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.
- Shri Ashish Kapoor, Practicing Company Secretary (Membership No. F8002. CP No. 7504) has been appointed as Scrutinizer by the Company to scrutinize the remote e-voting in a fair and transparent manner in accordance with the applicable provisions of the Act & Rules.
- The results of the Postal Ballot/ e-voting will be declared within a period of 2 (two) working days from the conclusion of remote e-voting by the Chairman or any other person authorized by him in that behalf and displayed at the registered office of the Company. The results along with Scrutinizer's report shall be placed on the website of the Company and simultaneously be communicated to the Stock Exchanges and NSDL.

Members are requested to register their email IDs permanently by following procedure as mentioned below: (a) Members holding shares in physical mode and who have not registered / updated their e-mail ID with the Company

- Registrar are requested to register / update their email ID with MCS Share Transfer Agent Limited by sending duly signed request Form ISR-1/ letter at cs@ptcindia.com with relevant details, folio number and attaching a self-attested copy of
- (b) Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their e-mail ID with the relevant

For further details, kindly refer to the notice of Postal Ballot, the notice is also available on Company's website (www.ptcindia.com), Stock Exchanges' websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Any member seeking of electronic copy of this notice may write to us at cs@ptcindia.com. Further details including detailed instructions for voting are provided in the notice of postal ballot available on the website of the Company

In case of any queries/issues related to this Postal Ballot including remote e-voting facility, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited, 4th Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel Mumbai-400013, India or at 022 - 4886 7000/ e-voting@nsdl.com

By Order of the Board of Directors For PTC India Limited

(Rajiv Maheshwari)

Company Secretary M.No. FCS4998

NOTICE

MUTUAL FUND

NOTICE is is hereby given that DSP Trustee Private Limited, the Trustee to DSP Mutual Fund ('Fund') has approved the distribution under Income Distribution cum Capital Withdrawal ('IDCW') Option(s) of the below mentioned scheme(s) of the Fund.

Record Date*: March 13, 2025

Name of Scheme(s)	Plan(s)	Option(s)	Quantum of IDCW (₹ per Unit)#	Face Value (₹per Unit)	Net Asset Value (NAV') as on March 07, 2025 (₹per unit)
DSP Top 100 Equity Fund	Direct	IDCW	2.4000	10.00	29.676
DSP Top 100 Equity Fund	Regular	IDCW	2.1000	10.00	25.906
DSP Banking & Financial Services Fund	Direct	IDCW	0.9000	10.00	11.740
DSP World Gold Fund of Fund	Direct	IDCW	0.8000	10.00	16.5405
DSP World Gold Fund of Fund	Regular	IDCW	0.8000	10.00	15.7316
DSP US Flexible Equity Fund of Fund	Direct	IDCW	2.7000	10.00	53.8857
DSP US Flexible Equity Fund of Fund	Regular	IDCW	1.4000	10.00	28.0105

The per unit rate is same for individual and other category of investors. *If in case the Record Date falls on a non-Business Day, the immediately following Business Day shall be the Record Date.

Distribution of the above IDCW is subject to the availability and adequacy of distributable surplus.

Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the IDCW Option(s) of the aforesaid Scheme(s) of the Fund would fall to the extent of payout and statutory levy, if any. IDCW amount will be paid to all those Unit Holders/Beneficial Owners whose names appear in the records of the Registrar and Transfer Agent, Computer Age Management Services Limited/statement of Beneficiary Owners maintained by the Depositories under the IDCW Option(s) of the aforesaid Scheme(s) as on the Record Date. The Payout shall be subject to tax deducted at source (TDS) as applicable.

Unit holders are advised to update change of address / bank details, if any, with depository participant(s) in advance of the Record Date.

Any queries/clarifications in this regard may be addressed to: DSP ASSET MANAGERS PRIVATE LIMITED CIN: U65990MH2021PTC362316, Investment Manager for DSP Mutual Fund ('Fund'), Mafatlal Centre, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai 400021, Tel. No.: 91-22-66578000, Fax No.: 91-22 66578181, Toll Free No: 1800 200 4499 Website: www.dspim.com

Unit holders are requested to update their PAN, KYC, email address, mobile number, nominee details with AMC and are also advised to link their PAN with Aadhaar Number. Further, Unit holders can view the Investor Charter available on website of the Fund as well as check for any unclaimed redemptions or Income Distribution cum Capital Withdrawal ('IDCW') payments.

Place: Mumbai Date: March 10, 2025

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.







टाटा पावर कंपनी

352.6 ³⁵⁶ टाटा पावर रिन्यूएबल और 351 आंध्र प्रदेश के बीच ऊर्जा परियोजना के लिए करार ₹ 351.3 पिछला बंद भाव 341 ₹ 352.6 आज का बंद भाव

सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज 1,605 1,609.9

चेकपॉइंट थेरेप्यूटिक्स का अधिग्रहण करने के लिए समझौता किया ₹ 1.609.9 पिछला बंद भाव ₹ 1,611.2 आज का बंद भाव

0.1 %

पुनावाला फिनकॉर्प 288.8-Mar 2025 Mar Ma

3 करोड़ रु तक की वित्तीय सहायता के साथ शिक्षा ऋण कारोबार में प्रवेश का ऐलान ₹ 288.3 पिछला बंद भाव ₹ 288.8 आज का बंद भाव

एसपीएमएल इन्फ्रा 185 झारखंड में कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई परियोजना के लिए समझौता . ¹⁵⁵ **₹ 167.3** पिछला बंद भाव ₁₄₀ **₹ 175.7** आज का बंद भाव **5.0 %** ▲

गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स



संक्षेप में

एईएसएल का आउटलुक नकारात्मक: फिच

रेटिंग एजेंसी फिच ने अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस (एईएसएल) को नकारात्मक आउटलुक दिया है जबिक कंपनी के लिए 'बीबीबी-' रेटिंग की पुष्टि की है। एजेंसी ने प्रेस को दिए बयान में ये बातें कही। फिच ने कहा, इसकी रेटिंग को रेटिंग वॉच नेगेटिव से हटा दिया गया है और नेगेटिव आउटलुक दिया गया है। एजेंसी ने कहा, हालांकि उनका मानना है कि समृह की नकदी और वित्त पोषण जरूरतों से जुड़े जोखिम कम हो गए हैं। पर आउटलुक नकारात्मक है, जो उनके इस दृष्टिकोण को दर्शाता है कि कार्यवाही और अमेरिकी जांच के परिणाम से पता चल सकता है कि समूह की कॉरपोरेट प्रशासन के चलन हमारी अपेक्षा से कमजोर हैं और निकट से मध्यम अवधि में नकारात्मक रेटिंग कार्रवाई की ओर ले जाती हैं। बीएस

गोदरेज ने तमिलनाडु के संयंत्र में काम शुरू किया

गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (जीसीपीएल) ने सोमवार को तमिलनाडु के चेंगलपट्ट जिले में अपनी पहली नई विनिर्माण इकाई में परिचालन शुरू कर दिया। इस इकाई पर 515 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। कंपनी का इरादा इस इकाई को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने का है और उसकी नजर अमेरिका, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसे बाजारों पर है। अपनी उत्पादन क्षमताएं बढ़ाने के लिए जीसीपीएल का यह सबसे बड़ा निवेश है। कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी सुधीर सीतापित ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'हम इस संयंत्र को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करना चाहते हैं और चेन्नई बंदरगाह भी इसके करीब है।'

2 अरब डॉलर की ऋण प्रतिभूतियों के लिए ...

1,555

टाटा कैप की नजर ईसीबी पर

देव चटर्जी मंबई. 10 मार्च

टा समूह की वित्तीय सेवा कंपनी टाटा कैपिटल अपने दो अरब डॉलर वाले मीडियम-टर्म नोट (एमटीएन) कार्यक्रम के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) के जरिये 75 करोड़ डॉलर तक की राशि जुटाना चाह रही है। मामले के जानकार बैंकरों के अनुसार इस राशि का उपयोग ऋण देने और अन्य कारोबारी कामों में

रकम जुटाने की यह कवायद ऐसे समय में की जा रही है, जब कंपनी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की तैयारी कर रही है, जिसके सितंबर तक आने की उम्मीद है और यह शेयरधारकों की मंजूरी पर निर्भर है। दिसंबर में टाटा कैपिटल ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों से 75 करोड़ डॉलर से अधिक की राशि जुटाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से मंजूरी मांगी थी। आरबीआई के आंकडों के अनसार उसकी सहायक कंपनी टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनैंस ने भी 20 करोड डॉलर की राशि जुटाने के लिए आवेदन किया है।

ब्लमबर्ग के अनसार एचएसबीसी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड को निर्गम के लिए संयुक्त बुक रनर नियुक्त किया गया है। उम्मीद है कि टाटा कैपिटल अपने



टाटा कैपिटल ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों से 75 करोड़ डॉलर से अधिक की राशि जुटाने के लिए दिसंबर में भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मांगी थी

एमटीएन कार्यक्रम के तहत तीन साल की वाले डॉलर-डिनॉमिनेटेड सीनियर अनिसक्योर्ड बॉन्ड जल्द ही लाएगी, जो दिसंबर 2028 में परिपक्व होंगे। यह बाजार की स्थितियों पर निर्भर करेगा। इस तरह के नोट आम तौर पर पांच से 10 वर्षों के भीतर परिपक्व होते हैं लेकिन कंपनियों को 30 वर्षों तक की विस्तारित परिपक्वता के साथ रोलिंग आधार पर ऋण के लिए निवेशकों का लाभ उठाने की सुविधा देते हैं।

विदेशी पुंजी जुटाने के मामले में टाटा कैपिटल अकेली कंपनी नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज तीन अरब डॉलर के विदेशी ऋण के लिए बाजार में है जिसकी पेशकश मार्च के मध्य तक होनी है। इस बीच श्रीराम फाइनैंस आगे ऋण देने के लिए एक वाणिज्यिक बैंक से करीब 1.5 अरब डॉलर जुटा रही है। आरबीआई के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।

जनवरी में एसऐंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने टाटा कैपिटल लिमिटेड के प्रस्तावित सीनियर डिनॉमिनेटेड अनिसक्योर्ड नोट को अपनी बीबीबी-फॉरेन करेंसी लॉन्ग-टर्म इश्यू रेटिंग दी

फरवरी के आखिर में टाटा कैपिटल के निदेशक मंडल ने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) और एक राइट्स इश्य को मंजरी दी थी। आईपीओ के बाद यह टाटा टेक्नोलजीज की नवंबर 2023 में सूचीबद्धता के बाद दो साल के भीतर शेयर बाजार में सूचीबद्धता वाली टाटा समृह की दुसरी कंपनी बन जाएगी। हालांकि कंपनी ने आईपीओ के आकार का खुलासा नहीं किया है, लेकिन बैंकिंग क्षेत्र के सूत्रों का अनुमान है कि इससे 1.5 अरब डॉलर से 1.7 अरब डॉलर तक की राशि जुटाई जा सकती है।

टाटा प्रोजेक्ट्स का निदेशक मंडल करेगा राइट्स इश्यू पर चर्चा

गैर-सूचीबद्ध कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स का निदेशक मंडल इक्विटी शेयरों के राइट्स इश्यू के जरिये रकम जुटाने के प्रस्ताव पर चर्चों के लिए गुरुवार को बैठक करेगा। कंपनी की विनियामकीय सूचना के अनुसार निदेशक मंडल कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में इजाफे के लिए मंजूरी हासिल करेगा जिसके लिए वह शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक बुलाने पर भी विचार करेगा। टाटा प्रोजेक्ट्स में टाटा संस की 57.31 प्रतिशत हिस्सेदारी है जबकि अन्य प्रमख शेयरधारकों में टाटा पावर (30.81 प्रतिशत), टाटा केमिकल्स (6.16 प्रतिशत), वोल्टास (4.3 प्रतिशत) और टाटा इंडस्ट्रीज (1.42 प्रतिशत)

'फ्रेशर अपस्किलिंग' को फिर् शुरू करेगी

उदिशा श्रीवास्तव नई दिल्ली, 10 मार्च

डिजिटल अपस्किलिंग पाठ्यक्रम महैया कराने वाली एडटेक फर्म सिम्पलीलर्न अपने दो प्रमुख वर्टिकलों 'फ्रेशर अपस्किलिंग' और 'स्टडी अब्रॉड' को फिर से पेश करने की योजना बना रही है।पिछले साल इन्हें बंद कर दिया गया था। सिम्पलीलर्न के संस्थापक और मख्य कार्याधिकारी कृष्ण कमार ने कहा कि अपनी महत्वपूर्ण वापसी के हिस्से के रूप में कंपनी इन सेवाओं के पुनर्निर्माण के लिए अधिग्रहणों की भी संभावना तलाशेगी।

ब्लैकस्टोन समर्थित इस कंपनी ने वर्ष 2024 में अपने स्टडी अब्रॉड और फ्रेशर अपस्किलिंग वर्टिकलों को बंद कर दिया था, क्योंकि इनका प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं था।

फ्रेशर अपस्किलिंग बाजार के लगातार उत्साह को ध्यान में रखते हुए कुमार ने कहा, 'हम पेशेवरों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन पहली बार नौकरी चाहने वालों के लिए उतने ज्यादा उत्साहित हैं। इस समय हम ग्राहकों को पूरी तरह से ऑनलाइन ही जोड़ रहे हैं। लेकिन फ्रेशर बाजार में प्रवेश के लिए कॉलेजों को सीधे पाठ्यक्रम बेचने की आवश्यकता



कंपनी ने वर्ष 2024 के दौरान अपने स्टडी अब्रॉड और फ्रेशर अपस्किलंग वर्टिकलों को बंद कर दिया था

है, जो हमारी मुख्य क्षमता नहीं है। मौजुदा समय में, कंपनी फ्रेशरों के लिए केवल फ्री स्किलिंग कोर्स उपलब्ध कराती है।

स्टडी अब्रॉड वर्टिकल के बारे में कुमार ने कहा कि कंपनी ने परिचालन बंद कर दिया, क्योंकि वह इसके परिणाम से संतुष्ट नहीं थी। कुमार ने बताया कि सिम्पलीलर्न का लक्ष्य भारत और अमेरिका में अपनी उपस्थिति मजबत बनाना है। कंपनी की प श्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में भी विस्तार की योजना है।

एवियो को दर्दिनवारक दवा का दुरुपयोग किए जाने का संदेह

सोहिनी दास मुंबई, 10 मार्च

टैफ्रोडोल ब्रांड के तहत टैपेंटाडोल और कैरीसोप्रोडोल (दर्द निवारक के रूप में इस्तेमाल) के दवा कॉम्बिनेशनों की निर्यात जांच से घिरी मुंबई की एवियो फार्मास्युटिकल्स का कहना है कि उसे संदेह है कि आयात

ace : New Delhi; Date : 10.03.2025

करने वाले देशों में स्थानीय लोग इस निदेशक अरविंद शर्मा ने कहा कि यह दवा का 'दुरुपयोग' कर रहे थे। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि 24 फरवरी का 'उत्पादन रोकने' का आदेश ड्रग्स ऐंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 की अनुसूची एम के तहत अनुपालन संबंधी मुद्दों के कारण था, न कि कॉम्बिनेशन उत्पाद की वजह से। एवियो फार्मास्युटिकल्स के प्रबंध

Gobind Gulati & Abhinav Gulati

स्पष्ट करना जरूरी है कि उत्पादन करना टैपेंटाडोल और कैरीसोप्रोडोल के कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट के कारण नहीं है, बल्कि ड्रग्स ऐंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 की अनुसूची एम के तहत कुछ अनुपालन मुद्दों से जुड़ा है, जो परिसर और उपकरण, सफाई एवं स्वच्छता, विनिर्माण प्रथाओं,

PTC India

दस्तावेजीकरण आदि से संबंधित अच्छी निर्माण प्रणालियों (जीएमपी) को दर्शाता है। उन्होंने कहा, 'हमने नियामक

प्राधिकरणों के सुझाए सुधारात्मक और निवारक उपाय पहलें ही अपना लिए हैं और उन्हें अपना जवाब सौंप दिया है।' शर्मा ने बताया कि उनके पास टैफ्रोडोल के लिए राज्य एफडीए से वैध उत्पाद मंजुरियां हैं। उन्होंने कहा, 'ये मंजरियां प्रमुख बाजार मिसालों और महाराष्ट्र और भारत के दूसरे राज्यों में अन्य निर्माताओं को दी गई मंजूरियों के अनुरूप हैं।' 24 फरवरी को, एवियो फार्मास्युटिकल्स को सीडीएससीओ (केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन) और राज्य एफडीए से 'उत्पादन बंद करने' का आदेश और कारण बताओ नोटिस मिला था।

5% तक रहेगी वाणिज्यिक वाहन उद्योग की वृद्धि

अवधि के बाद भारतीय वाणिज्यिक के दौरान थोक बिक्री में सालाना बिक्री गतिविधियों के सपाट रहने के

इक्रा के अनुसार यह संभावित

रुपये लगाएगी आकाश जेडन मैथ्यू पॉल मुंबई, 10 मार्च

का निवेश करेगी।

आकाश एजुकेशनल सर्विसेज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी दीपक मेहरोत्रा ने आज यहां कहा कि कंपनी अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्षमता और एआई-संचालित लर्निंग प्लेटफॉर्मों का दायरा बढाने के लिए अगले तीन वर्षों के दौरान 800 करोड से 1.000 करोड रुपये तव

वर्ष 1988 में शुरू हुई नई दिल्ली की यह शिक्षा प्रदाता अब छोटे भारतीय कस्बों में पहंच बढा रही है और टियर 3 तथा टियर 4 शहरों में अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग के लिए बढ़ती मांग पर दांव लगा रही है।

सिस्टम्स मणिपाल ब्लैकस्टोन समेत प्रमख निवेशकों द्वारा समर्थित आकाश एजुकेशनल कंपनी अब छोटे कस्बों में पहंच बढा रही

एआई में 1,000 करोड़

मेडिकल इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को सेवा मुहैया कराती है। कंपनी अब 'आकाश 2.0' रणनीति के हिस्से के रूप में नए केंद्र, डिजिटल प्लेटफॉर्म और एआई-संचालित शिक्षण कार्यक्रम शुरू कर रही है।

कंपनी ने अगले चार साल में अपने कुल राजस्व में ऑनलाइन एवं हाइब्रिड लर्निंग का योगदान बढ़ाकर 20-25 फीसदी करने का लक्ष्य रखा है जो मौजुदा समय में 5 प्रतिशत है। मेहरोत्रा का कहना है कि छोटे शहरों में मुख्य समस्या अ भिभावकों को यह समझाने की है कि उनके बच्चों को उसी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी, जो बड़े शहरों में मिलती है।

OSBI-SG

This is to inform the general public that following share certificate of **UPL Limited** having its Registered Office at Uniphos House, C.D. Marg,11th Road,Madhu Park,Khar (West),Mumbai –400

The public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above referred shai

Any person who has any claim in respect of the said share certificates/s should lodge such claim with the

rry person who has any claim in Perspect of the said shale definitioners should begin scale than with it ompany or its registrar and transfer agents Link Intime India Pvt.Ltd 247 Park C-101 sts Floor L.B.S. Mar (ikhroli (W) Mumbai 400083 TEL: 02249186270 within 15 days of publication of this notice after which n

052 India registered in the name of the following shareholder/s have been lost by then

1. Gobind Gulati & Abhinay Gulati G05031 177532 54334660-54334759

2. Gobind Gulati & Abhinav Gulati G05031 18803 437204623-437205122

claim will be entertained and the company shall proceed to issue Duplicate Share Certificate/s.

S.No. Name of the Shareholder/s Folio No. Cert. No.

SBI-SG GLOBAL SECURITES SERVICES PVT LTD.

B Wing, Ground Floor, Jeevan Seva Annex (LIC) Building, SVP Road, Santacruz - W. Mumbai - 400054, Maharashtra, India

TENDER NOTICE Chief Administrator & Financial officer, SBI-SG Global Securities

Services Pvt Ltd, B Wing, Ground Floor, Jeevan Seva Annex (LIC) building, SVP Road, Santacruz - W, Mumbai - 400054, Maharashtra, India invites sealed bids from eligible bidders for supply, installation, testing, commissioning, training and maintenance of evoting platform system/product to track evoting related tasks as per requirement mentioned in RFP number SBISGGSS/IT/24-25/826. The complete set of bidding documents can be downloaded from our website https://www.sbisgcsl.co.in/statutory/ "TENDER" section. Complete set of bidding documents may be submitted in sealed envelopes on or before 14-03-2025 by 05:30 pm at our registered office

> (Prakash Kumar) Chief Administrator & Financial Officer

OSBI

कॉर्पोरेट केंद्र, दबावग्रस्त आस्तियाँ समाधान समूह

दूसरी मंजिल, द आर्केंड वर्ल्ड ट्रेंड सेन्टर, कफ़ परेड, मुंबई - 400005 ई-नीलामी के माध्यम से पात्र खरीदारों

(अनुमत एआरसी / एनबीएफसी / बैंकों / वित्तीय संस्थाओं) को स्ट्रेस्ड लोन एक्सपोजर का हस्तांतरण

भारतीय स्टेट बैंक ₹ 284.57 करोड़ (केवल ₹ दो सौ चौरासी करोड़ सत्तावन लाख) के दबावग्रस्त ऋण एक्सपोजर, जिसमें 30 (तीस) खातों का 5 (पाँच) पूल/पोर्टफोलियो शामिल है. जिसका बकाया समेकित मलधन ₹ 90.01 करोड़ (केवल ₹ नब्बे करोड़ एक लाख) है. के अंतरण हेतु, भारतीय रिज़र्व बैंक/नियामकों द्वारा जारी लागू नियमों के अधीन होकर, योग्य प्रतिभागियों से, 'जैसा है जहाँ है', 'जैसा है जो है', 'जो कुछ भी है' और 'दायित्वरहित' आधार पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है.

सभी इच्छुक पात्र प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे 'रुचि की अभिव्यक्ति' के माध्यम से ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अपनी इच्छा प्रस्तुत करें और गैर-प्रकटीकरण समझौते के निष्पादन के बाद, यदि पहले से ही निष्पादित नहीं किया गया है (वेब नोटिस में उल्लिखित समयसीमा के अनुसार) ई-मेल आईडी dgm.sr@sbi.co.in पर संपर्क करें. कृपया बैंक की वेब साइट <u>https://bank.sbi</u> पर जाएं और अधिक विवरण "SBI in the news>Auction Notices>ARC&DRT" में लिंक पर क्लिक करें (वेब नोटिस).

कृपया ध्यान दें कि बैंक अपने पास <u>https://bank.sbi</u> ("SBI in the news>Auction Notices>ARC & DRT" में लिंक पर क्लिक करें) पर शुद्धिपत्र अपलोड करके बिना कोई कारण बताए प्रस्तावित ई-नीलामी को आगे जारी न रखने और ई-नीलामी को परिवर्तित करने, किसी भी नियम और शर्तों आदि को किसी भी स्तर पर संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा.

उप महाप्रबंधक (ऋण एवं एआरसी) दिनांक : 11.03.2025

द्वारा जारी

पीटीसी इंडिया लिमिटेड

सीआईएन : L40105DL1999PLC099328 पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल, एनबीसीसी टॉवर, 15 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066 वेबसाइट : टेलीफोन : 011—41659500, 41595100, 46484200, फैक्स : 011—41659144

ई-मेल : info@ptcindia.com वेबसाइट : www.ptcindia.com पोस्टल बैलट की सूचना

एतदद्वारा सदस्यों को सुचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और 110 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के साथ कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 और 22, (सामूहिक रूप से "अधिनियम") भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियमावली") के विनियम ४४, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक–2 और अन्य लागू कानून और विनियमन, यदि कोई हो, जिसमें कोई वैधानिक संशोधन, पुनः अधिनियमन शामिल है, जो वर्तमान में लागू है, के अनुसार पीटीसी इंडिया लिमिटेड ("कम्पनी") अपने सदस्यों से पोस्टल बैलट नोटिस दिनांकित 10 मार्च, 2025 (पोस्टल बैलट नोटिस") में निर्धारित प्रस्ताव को केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("ई–वोटिंग / रिमोट ई–वोटिंग") के माध्यम से पारित करने के लिए अनुमोदन मांग रही है।

अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनसार और कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनसार अन्य बातों के साथ—साथ. सामान परिपत्र संख्या १४/२०२० (दिनांक ८ अप्रैल २०२०) और कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम परिपत्र संख्या ९/२०२४ दिनांक १९ सितंबर 2024 और भारतीय प्रतिभति और विनिमय बोर्ड ("संबी") द्वारा जारी परिपत्र संख्या संबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी – पीओडी – 2 / पी सीआईआर / 2024 / 133 दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 के माध्यम से ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलट आयोजित करने के लिए. उन सभी सदस्यों को ईमेल के माध्यम से रिमोट ई—वोटिंग के बारे में निर्देशों के साथ पोस्टल बैलट सचना भेजने की प्रक्रिया 10 मार्च, 2025 को परी हो चकी है, जिनके ईमेल पते कम्पनी या डिपॉजिटरी ∕ डिपॉजिटरी प्रतिभागियों या कम्पनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") के साथ पंजीकृत हैं और जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थी स्वामियों की सूची में शुक्रवार, 07 मार्च, 2025 ("कट-ऑफ तिथि") तक दर्ज मौजूद हैं।

एमसीए परिपत्रों की आवश्यकताओं के अनुपालन में, इस पोस्टल बैलट के लिए पोस्टल मतपत्र और प्रीपेड बिजनेस लिफाफे के साथ पोस्टल बैलट सुचना की भौतिक प्रति सदस्यों को नहीं भेजी जाएगी और सदस्यों को केवल रिमोट ई—वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करनी होगी। कम्पनी ने रिमोट ई—वोटिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") को ई—वोटिंग एजेंसी के रूप में नियक्त किया है।

तिथि : 10 मार्च, 2025

स्थान : नई दिल्ली

(क) रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 11 मार्च, 2025 (पूर्वा. 09.00 बजे आईएसटी) से शुरू होगी और बुधवार, 09 अप्रैल, 2025 (शाम 5.00 बजे आईएसटी) को सभी सदस्यों के लिए समाप्त होगी, चाहे वे भौतिक रूप में शेयर रखते हैं या डीमैट रूप में। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उक्त समय और तिथि के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनमति नहीं दी जाएगी। एक बार डाले गए वोट को बाद में बदला नहीं जा सकता है।

(ख) वह[ँ] व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 07 मार्च, 2025 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वह रिमोट ई-वोटिंग की सविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। (ग) श्री आशीष कपुर, कार्यरत कम्पनी सचिव (सदस्यता संख्या एफ8002, सीपी संख्या 7504) को अधिनियम एवं नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसा

निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग की जांच करने के लिए कम्पनी द्वारा संवीक्षक नियुक्त किया गया है। पोस्टल बैलट / ई-वोटिंग के परिणाम रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति से 2 (दो) कार्य दिवसों के मीतर अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा घोषित किए जाएंगे और कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रदर्शित किए जाएंगे। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ परिणाम कम्पनी की

वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे और साथ ही स्टॉक एक्सचेंज और एनएसडीएल को भी सूचित किए जाएंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके अपनी ईमेल आईडी स्थायी रूप से पंजीकृत करें : (क) भौतिक रूप में शेयर धारक सदस्य जिन्होंने कम्पनी रजिस्ट्रार के पास अपना ई–मेल आईडी पंजीकृत / अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध फॉर्म आईएसआर—1 / पत्र <u>cs@ptcindia.com</u> पर प्रासंगिक विवरण, फोलियो नंबर और पैन कार्ड की स्वयं

सत्यापित प्रति संलग्न करके भेजकर एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड के साथ अपना ई—मेल आईडी पंजीकृत / अपडेट करें। (ख) डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना ई−मेल आईडी पंजीकृत ∕ अपडेट कर

अधिक जानकारी के लिए कृपया पोस्टल बैलट की सूचना देखें, यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट (www.ptcindia.com), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। इस सूचना की प्रति का इच्छुक कोई भी सदस्य हमें <u>cs@ptcindia.com</u> पर लिख सकता है। मतदान के लिए विस्तत निर्देशों सहित अन्य विवरण कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध पोस्टल बैलट की सूचना में दिए गए हैं।

ई—वोटिंग सुविधा से संबंधित किसी भी प्रश्न / समस्या के मामले में, आप <u>www.evoting.nsdl.com</u> के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई—वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, चतुर्थ तल, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल मुंबई–400013, भारत से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा 022-4886 7000 / e-voting@nsdl.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेश द्वारा वास्ते पीटीसी इंडिया लिमिटेड

> हस्ता. / (राजीव माहेश्वरी) कम्पनी सचिव

> > एफसीएस 4998

अंजलि सिंह मुंबई, 10 मार्च वित्त वर्ष 25 में ठहराव वाली

वाहन उद्योग थोड़े से सुधार के लिए तैयार हो रहा है।इक्रा ने वित्त वर्ष 26 आधार पर तीन से पांच प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है। यह अनुमानित सुधार वित्त वर्ष 25 में बाद जताया गया है।

वृद्धि कई कारणों से होगी जिनमें निर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्र की गतिविधियों की बहाली, ग्रामीण मांग में निरंतरता और सरकारी आदेशों के साथ-साथ पुराने वाहनों को हटाने से होने वाली बिक्री वृद्धि शामिल है।इक्रा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सह-समूह प्रमुख किंजल शाह के अनुसार, 'बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी, हाल के बजट में अधिक आवंटन, सतत खनन गतिविधियां और राजमार्ग की बेहतर कनेक्टिविटी से आगे चलकर बिक्री में वृद्धि होगी। भाषा

क्लीनमैक्स और ओसाका गैस ने बनाया संयुक्त उद्यम

पहले चरण

जेडन मैथ्यू पॉल मुंबई, 10 मार्च

ब्रुकफील्ड समर्थित अक्षय ऊर्जा प्रदाता क्लीनमैक्स ने जापानी कंपनी ओसाका गैस के साथ मिलकर भारत के कॉरपोरेट क्षेत्र की जरूरतों को परा करने के लिए एक संयक्त उद्यम शुरू किया है। नई इकाई क्लीन मैक्स ओसाका एनर्जी रिन्यएबल

(सीओआरई) कर्नाटक

में 400 मेगावाट **में 1,500** पोर्टफोलियो के साथ करोड रुपये शुरुआत करते हुए पवन-निवेश होगा सौर हाइब्रिड समाधानों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

परियोजना के प्रथम चरण में 300 मेगावाट की परिचालन क्षमता शामिल है, जिसका कुल निवेश मुल्य 1,500 करोड़ रुपये है तथा अंगले छह से आठ महीनों में अतिरिक्त 100 मेगावाट का कार्य पुरा होने की उम्मीद है।

क्लीनमैक्स के प्रबंध निदेशक कुलदीप जैन ने कहा, मुख्य उद्देश्यों में से एक पंजी दक्षता है क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा बड़े पैमाने पर पंजी गहन वाला उद्योग है।

उन्होंने कहा, सीओआरई में क्लीनमैक्स का बहुमत होगा और इसमें दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों वाला एक बोर्ड होगा। जैन ने कहा, संयक्त उद्यम इंजीनियरिंग में क्लीनमैक्स की क्षमताओं का लाभ उठाएगा और कर्नाटक में स्थित मौजूदा परियोजनाओं को

> स्थापित करेगा। शुरुआती हालांकि ध्यान कर्नाटक पर है, लेकिन भौगोलिक विस्तार पर भी विचार किया जा

रहा है। जैन ने कहा. कर्नाटक अब तक हमारा सबसे बड़ा बाजार रहा है। यहां कई प्रौद्योगिकी कंपनियां, सीमेंट कंपनियां हैं और आम तौर पर यह एक बहुत बड़ा और लाभदायक राज्य है। इसलिए 400 मेगावाट का बडा हिस्सा कर्नाटक राज्य में है और पवन-सौर हाइब्रिड समाधानों पर केंद्रित है।

महिंद्रा एग्री की नए वैश्विक बाजारों पर नजर

महिंद्रा ऐंड महिंद्रा की सहायक कंपनी महिंद्रा एग्री सॉल्यूशंस लिमिटेड (एमएएसएल) अपने भारतीय टेबल अंगूरों (फल के रूप में सीधे उपभोग किए जाने वाले अंगूर) के लिए नए बाजार तलाश रही है। महिंद्रा एग्री सॉल्यशंस पहले से ही यरोप, उत्तर अमेरिका, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया को निर्यात कर रही है। कंपनी अन्य बागवानी फसलों की संभावना तलाशते हुए नए इलाकों में भी पहुंचने की योजना बना रही है।

कंपनी का नाशिक, बारामती और सांगली (महाराष्ट्र) के 500 से ज्यादा किसानों के साथ करार है और उन्हें खेती की ऐसी तकनीकों से लैस करती है जिससे कि उनकी निर्यात योग्य पैदावार बढ़े। यह साझेदारी सुनिश्चित करती है कि भारतीय अंगुर वैश्विक गुणवत्ता के कडे मानकों पर खरे उतरें और इस तरह वे प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पसंदीदा विकल्प बन जाते हैं।

How technology can help in inflation forecasting

The integration of AI in economic forecasting, specifically inflation prediction, is a burgeoning field that leverages advancements in ML and natural language processing



& PULAK GHOSH

"Central banks must feel like they have stepped through a mirror, and who can blame them? They used to struggle to bring inflation down or keep it under control; now they toil to push it up. They used to fear wage increases; now they urge them on. They used to dread fiscal expansion: now they sometimes invoke it.'

- Claudio Borio, 2017, former head, Monetary and Economic Department, Bank for International Settlements


ast forward to 2022, when this cycle was reversed, and it was completely unanticipated. with the world engulfed with a vicious inflation cycle. However, such developments clearly reflected the significant scholastic challenges in monetary policymaking post the global financial crisis and in the aftermath of the pandemic. Interestingly, such challenges now also confront monetary policymaking in India, as we are recently witnessing. In essence, globalisation has acted as a powerful tool in contributing to extended periods of low and high inflation. Additionally, the entry of low-paid workers in the workforce at home and globally, as emerging markets have

opened up, has further complicated monetary policymaking.


Against this background, it is imperative that the economic research methodology at central banks (the Reserve Bank of India included) of forecasting macro variables like inflation keep pace with technological advancements. Remarkably, the new RBI governor has already emphasised the importance of such tools.

For example, the path of inflation trajectory in the future is fraught with uncertainties since opposite forces are at work. While food price outlook will continue to have a large impact on Consumer Price Index (CPI) inflation (the global food price index has been rising recently), geopolitical uncertainties, like threats of dumping and fall in global oil prices, would have a soothing impact on inflation. Gold prices could also have an impact as central banks had continued to buy gold in recent years, diversifying the reserve base. Clearly, many competing forces are at work. This would also mean that the focus of economic research at central banks will have to be more nimble, agile and fleet-footed to support policymaking. In fact, emerging economy central banks, like the RBI, can take a clearly defined frontloaded initiative in this matter, just as it did recently in frontloading policy actions even before the Fed did.

The increasing adoption of large language models (LLMs) marks a significant shift in such economic research methodology. One important question to the central bank policymakers is: Can LLM be used to understand inflation quickly, more



GOOGLE TREND VS ACTUAL INFLATION: FY22-FY25 (Jan)



accurately and in the most costeffective way? Additionally, every central bank spends a lot of money on surveying consumers to understand inflation expectations. The obvious question is: Can LLMs replicate key patterns observed in human survey responses regarding inflation expectations? How do these models react to different types of economic information? Can they serve as reliable tools for aug-

menting traditional survey methods and informing policy design?

An LLM can be very useful in inflation estimation in two pri-

mary ways. First, by analysing vast amounts of text data from news articles, economic reports, and social media to identify trends and sentiment that might indicate future changes in price levels, potentially providing a

more nuanced and timely understanding of inflation compared to traditional methods that rely solely on numerical data. This can be particularly useful for "nowcasting" or short-term inflation forecasts. Improving classic inflation nowcasting techniques through the use of machine learning (ML) and artificial intelligence (AI) techniques to capture expectations is quite com-

mon now.

The integration of AI in economic forecasting, specifically inflation prediction, is a burgeoning field that leverages advancements in ML and natural language processing. Recent studies, such as the one conducted by Miguel Faria-e-Castro and Fernando Leibovici (2024) at the Federal Reserve Bank of St Louis, explore the potential of LLMs like Google's PaLM to generate accurate inflation forecasts. This research demonstrates that LLMs can produce much lower conditional inflation forecasts with lower mean-squared errors compared to traditional methods such as the Survey of Professional Forecasters over multiple years and forecast horizons. The findings suggest that AI-based models can offer an effective and cost-efficient alternative to traditional expert and survey-based forecasting methods. This study aligns with previous works like those by L Bybee (2023), who used GPT-3.5 to simulate economic expectations, and extends the understanding of how LLMs can be utilised for macroeconomic and financial predictions.

Another angle where LLM can be very useful is deploying AI agents — automated agents

using LLMs with predefined tasks — in structured inflation expectation surveys, and comparing their responses to human survey response data. This can be highly effective, and recent work explores this successfully.

The idea is simple and involves employing AI agents as participants in a survey experiment focused on household and consumer inflation expectations, rather than those of professional forecasters or firms. This focus is particularly valuable as household expectations play a crucial role in determining consumer behaviour and aggregate economic outcomes. while gathering large-scale household response data is often costly and time-consuming. This approach enables AI agents to access and incorporate external knowledge, demonstrating how they process real-world economic information. This approach is especially relevant given that household inflation expectations significantly influence central bank policy design and implementation.

The rapid adoption of generative AI (GAI) across economic sectors adds urgency to this research. Bick et al (2024) find that nearly 40 per cent of US adults used generative AI by August 2024, with 28 per cent using it at work. Aldasoro et al (2024) report almost half of US households use GAI tools. though usage varies significantly across demographic groups. As AI-assisted decision-making becomes more prevalent, understanding these patterns and their implications becomes increas-

ingly important (Korinek, 2023). However we must remember that there are several caveats in the use of LLMs for forecasting. First, these models are pretrained by their developers on specific datasets. The user of the LLM has no control over the data used to train these models and retraining them over subsets of data is typically not an option as it involves significant hardware requirements. The training data is typically not time-stamped. which prevents retraining the model on data up to a certain date. This limitation also makes it impossible to produce true outof-sample forecasts for all dates on which the model has been

trained. Second, publicly available models are regularly retrained by the developers, pos-

ing challenges to replicability. Despite these caveats, the time is ripe to take the first step towards assessing the potential of LLMs as forecasting tools. By comparing these simulated forecasts with the actual inflation data and forecasts from other sources, we can assess the poten tial accuracy and usefulness of LLMs in inflation forecasting

The accompanying graph shows the Google trends in inflation from India juxtaposed against the actual inflation. The Google trend inflation is indexed on a scale of 1-100, where a higher number, say, 70 indicates that the noise on inflation is 70 per cent of the all-time high at 100! The trends reveal that the Google trend has been a leading indicator of headline inflation. This was evident in January 2024 and May 2024 when headline inflation was declining but Google trend inflation was increasing. Headline inflation actually jumped thereafter.

We end with an interesting anecdote. Exit poll results for India in June 2024 did dent the credibility of pollsters. While almost all exit polls released on June 1 got their predictions terribly wrong, a more accurate analysis came from a research firm called Kcore Analytics This company used artificial intelligence gathered from people's social media interactions (if we recollect, a large part of the campaigning for 2024 general elections were driven by unsubstantiated social media cacophony and narratives) - what they were reading, writing, and responding to on the internet to predict voter preferences. The analysis also used important data like inflation, which could influence elections. The results were almost spot on! Amongst all imprecise exit polls, this AI exit poll has truly been an outlier. Paraphrasing Milton Friedman differently: "Inflation everywhere is a monetary (and a political) phenomenon!

The authors are, respectively, Member, 16th Finance Commission, and Group Chief Economic Advisor, State Bank of India; and Professor, Indian Institute of Management Bangalore

MPL

MAITHON POWER LIMITED

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST

following packages: Tender Description

For details of pre-qualification requirements, bid security, purchasing of tender document etc. please visit our website URL- https://www.tatapower.com/tender

(Contracts Department) Maithon Power Ltd, Village: Dambhui, PO Barbindia, PIN-828205, District-Dhanbad

The Maithon Power Limited invites expression of interest from eligible vendors for the

Supply of RAPH baskets & RAPH Seals & Spares for U#1 shut down in FY-26 2 Mill Reject removal - Unit -1 & 2-Ist & 2nd Year in Maithon Power Limited

Eligible vendors willing to participate may submit their expression of interest along with the tender fee for issue of bid document latest by 20th - March 2025.

Mother Dairy Calcutta P.O. - Dankuni Coal Complex, Dist - Hooghly, Pin - 712310

Mother Dairy Calcutta invites e-tender for supplying of "Caustic Soda Lye" on Annual Rate Contract basis. Please visit www wbtenders.gov.in and www.motherdairycalcutta. com for details. Last date of uploading of online offer i

27.03.2025 upto 03:00 pm.

Chief General Manager

UNITED SPIRITS LIMITED

DIAGEO Regd. Office: 'UB Tower', # 24, Vittal Mallya Road, Bengaluru-560 001.

Tel: +91 80 3985 6500; Fax: +91 80 3985 6862 Email: investor.india@diageo.com Website: www.diageoindia.com Corporate Identity Number: L01551KA1999PLC024991

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the Company has received requests from the following shareholders for issue of Duplicate Share Certificate(s) in lieu of the Original Share Certificate(s) reported to have been lost / misplaced. The share certificate(s) mentioned hereunder are therefore deemed to be cancelled and no transactions thereon would be recognized by the Company

SI.	Folio No.	Name of the Shareholder	No. of	Certificate	Distinctive Nos		
No			Shares	Number	From	То	
01	MS138377	PREM KUMAR TACHOLI KARAYI	1000	6005	723215636	723216635	
02	MS049185	HARSHADA PATIL MR BARUN DAS	500	1755	720796836	720797335	

The public are hereby advised against dealing in any way with the above share certificates. Any person(s) who has / have any claims(s) in respect of the said share certificates should lodge such claim(s) along with all documentary evidences with the Company at its Registered Office within 7 days of the publication of this notice, after which no claim(s) will be entertained, and the Company will proceed to issue duplicate share certificates.

Place : Mumbai Dated: 10.03.2025 For UNITED SPIRITS LIMITED Mital Sanghvi (Company Secretary)

OSBI

Corporate Centre, Stressed Assets Resolution Group, 2nd Floor, The Arcade, World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai-40005

TRANSFER OF STRESSED LOAN EXPOSURE TO ELIGIBLE BUYERS (PERMITTED ARCs/NBFCs/Banks/Fls)
THROUGH e-AUCTION

State Bank of India invites Expression of Interest (EOI) from eligible participants subject to applicable regulations issued by Reserve Bank of India/Regulators for transfer of Stressed Loan Exposure of ₹284.57 crore (Rupees two hundred eighty four crore fifty seven lakh only) pertaining to 5(five) pools / portfolios comprising 30 (thirty) accounts having aggregate principal outstanding of₹90.01 Crore (Rupees ninety crore one lakh only) through e-Auction on "as is where is", "as is what is", "whatever there is' and "without recourse" basis.

All interested eligible participants are requested to submit their willingness to participate in the e-Auction by way of an "Expression of Interest" and after execution of Non-Disclosure Agreement (as per the $time lines \, mentioned \, in \, web-notice) \, if \, not \, already \, executed \, \, by \, contacting \, if \, not \, already \, executed \, \, by \, contacting \, if \, not \, already \, executed \, \, by \, contacting \, if \, not \, already \, executed \, \, by \, contacting \, if \, not \, already \, executed \, \, by \, contacting \, if \, not \, already \, executed \, \, by \, contacting \, if \, not \, already \, executed \, \, by \, contacting \, if \, not \, already \, executed \, \, by \, contacting \, if \, not \, already \, executed \, \, by \, contacting \, if \, not \, already \, executed \, \, by \, contacting \, if \, not \, already \, executed \, \, by \, contacting \, if \, not \, already \, executed \, \, by \, contacting \, if \, not \, already \, executed \, \, by \, contacting \, if \, not \, already \, executed \, \, by \, contacting \, if \, not \, already \, executed \, \, by \, contacting \, if \, not \, already \, executed \, executed \, executed \, executed \, exe$ on e-mail id dgm.sr@sbi.co.in. Please visit Bank's website https://bank.sbi and click on the link "SBI in the news>Auction Notices>ARC&DRT" for further details (web-notice).

Please note that Bank reserves the right not to go ahead with the proposed e-Auction and modify e-Auction date, any terms & conditions etc. at any stage without assigning any reasons by uploading the corrigendum at https://bank.sbi (click on the link "SBI in the news>Auction Notices>ARC & DRT"). The decision of the Bank shall be final and binding.

Place: Mumbai Issued by Date: 11.03.2025 Deputy General Manager (Credit & ARC)

PTC India

Date:10th March, 2025

Place: New Delhi

PTC India Limited

CIN: L40105DL1999PLC099328

Regd. Office: 2nd Floor, NBCC Tower, 15 Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066 Website: Tel: 011-41659500, 41595100, 46484200. Fax: 011-41659144 E-mail: info@ptcindia.com Website: www.ptcindia.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108 and 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (cumulatively "Act"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard-2 issued by Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws and regulations, if any including any statutory modification (s), re-enactment (s) thereof, for the time being in force, PTC India Limited (the "Company") is seeking approval from its Members for passing of Resolution as set out in the Postal Ballot Notice dated 10th March, 2025 ("Postal Ballot Notice") by way of electronic voting ("e-voting/remote e-voting") only.

inter-alia, for conducting Postal Ballot through e-voting vide General Circular No. 14/2020 (dated 8th April 2020) and latest being Circular No. 9/2024 dated 19th September, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular/s") and circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 03rd October, 2024 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), the process of sending Postal Ballot Notice along with the instructions regarding remote e-voting through email to all those Members, whose email addresses is registered with the Company or with the Depositories/ Depository Participants or Registrar and Share Transfer Agent of the Company ("RTA") and whose names appear in the Register of Members/list of Beneficial Owners as on Friday, 07th March, 2025 ("Cut-Off Date"), has completed on 10th March, 2025. In compliance with the requirements of the MCA Circulars, physical copy of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms

In terms of relevant provisions of the Act and in accordance with the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs,

and pre-paid business envelope will not be sent to the Members for this Postal Ballot and Members are required to communicate their assent or dissent through remote e-voting systems only. The Company has engaged National Securities Depository Limited ("NSDL") as e-voting agency for the purpose of providing remote e-voting services All the members are hereby informed that:

(a) The remote e-voting period commences on Tuesday, 11th March, 2025 (09:00 A.M. IST) and will end on Wednesday, 09th April, 2025 (05:00 P.M. IST) for all the members, whether holding shares in physical form or in demat form. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said time and date. Vote once casted cannot be changed subsequently.

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by depositories as on Cut-Off date i.e. Friday, 07th March, 2025, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. Shri Ashish Kapoor, Practicing Company Secretary (Membership No. F8002. CP No. 7504) has been appointed as

Scrutinizer by the Company to scrutinize the remote e-voting in a fair and transparent manner in accordance with the applicable provisions of the Act & Rules. The results of the Postal Ballot/ e-voting will be declared within a period of 2 (two) working days from the conclusion of remote e-voting by the Chairman or any other person authorized by him in that behalf and displayed at the registered office of the Company. The results along with Scrutinizer's report shall be placed on the website of the Company and

simultaneously be communicated to the Stock Exchanges and NSDL. Members are requested to register their email IDs permanently by following procedure as mentioned below:

(a) Members holding shares in physical mode and who have not registered / updated their e-mail ID with the Company Registrar are requested to register / update their email ID with MCS Share Transfer Agent Limited by sending duly signed request Form ISR-1/ letter at cs@ptcindia.com with relevant details, folio number and attaching a self-attested copy of

(b) Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their e-mail ID with the relevant

For further details, kindly refer to the notice of Postal Ballot, the notice is also available on Company's website (www.ptcindia.com), Stock Exchanges' websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Any member seeking of electronic copy of this notice may write to us at cs@ptcindia.com. Further details including detailed instructions for voting are provided in the notice of postal ballot available on the website of the Company

In case of any queries/issues related to this Postal Ballot including remote e-voting facility, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited, 4th Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel Mumbai-400013, India or at 022 - 4886 7000/ e-voting@nsdl.com

By Order of the Board of Directors For PTC India Limited

> (Rajiv Maheshwari) Company Secretary M.No. FCS4998

NOTICE

MUTUAL FUND

NOTICE is is hereby given that DSP Trustee Private Limited, the Trustee to DSP Mutual Fund ('Fund') has approved the distribution under Income Distribution cum Capital Withdrawal ('IDCW') Option(s) of the below mentioned scheme(s) of the Fund.

Record Date*: March 13, 2025

Name of Scheme(s)	Plan(s)	Option(s)	Quantum of IDCW (₹ per Unit)#	Face Value (₹per Unit)	Net Asset Value (NAV') as on March 07, 2025 (₹ per unit)
DSP Top 100 Equity Fund	Direct	IDCW	2.4000	10.00	29.676
DSP Top 100 Equity Fund	Regular	IDCW	2.1000	10.00	25.906
DSP Banking & Financial Services Fund	Direct	IDCW	0.9000	10.00	11.740
DSP World Gold Fund of Fund	Direct	IDCW	0.8000	10.00	16.5405
DSP World Gold Fund of Fund	Regular	IDCW	0.8000	10.00	15.7316
DSP US Flexible Equity Fund of Fund	Direct	IDCW	2.7000	10.00	53.8857
DSP US Flexible Equity Fund of Fund	Regular	IDCW	1.4000	10.00	28.0105

The per unit rate is same for individual and other category of investors. *If in case the Record Date falls on a non-Business Day, the immediately following Business Day shall be the Record Date.

Distribution of the above IDCW is subject to the availability and adequacy of distributable surplus.

Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the IDCW Option(s) of the aforesaid Scheme(s) of the Fund would fall to the extent of payout and statutory levy, if any. IDCW amount will be paid to all those Unit Holders/Beneficial Owners whose names appear in the records of the Registrar and Transfer Agent, Computer Age Management Services Limited/statement of Beneficiary Owners maintained by the Depositories under the IDCW Option(s) of the aforesaid Scheme(s) as on the Record Date. The Payout shall be subject to tax deducted at source (TDS) as applicable.

Unit holders are advised to update change of address / bank details, if any, with depository participant(s) in advance of the Record Date.

Any queries/clarifications in this regard may be addressed to: DSP ASSET MANAGERS PRIVATE LIMITED CIN: U65990MH2021PTC362316, Investment Manager for DSP Mutual Fund ('Fund'), Mafatlal Centre, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai 400021, Tel. No.: 91-22-66578000, Fax No.: 91-22 66578181, Toll Free No: 1800 200 4499 Website: www.dspim.com

Unit holders are requested to update their PAN, KYC, email address, mobile number, nominee details with AMC and are also advised to link their PAN with Aadhaar Number. Further, Unit holders can view the Investor Charter available on website of the Fund as well as check for any unclaimed redemptions or Income Distribution cum Capital Withdrawal ('IDCW') payments.

Place: Mumbai Date: March 10, 2025

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

